



# राष्ट्रदूत

Rashtradoot

**Memecoin Mania:  
Totoro, Turnips, and  
Tokenomics**
**A Season Without  
Borders**

"That festival is foreign culture. We shouldn't celebrate it." Foreign? What is foreign about joy? What is foreign about dancing, being drenched in water fights, or having colours thrown upon you?

## ‘मोदी का उत्तराधिकारी ढूँढने की कोई आवश्यकता ही नहीं, वे 2029 में भी प्र.मंत्री के उच्चतम पद पर रहेंगे’

महाराष्ट्र के मु.मंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने स्पष्ट शब्दों में पत्रकारों से कहा। जैसा कि विदित ही है फड़नवीस को मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता है

-डॉ. सतीश मिश्रा-  
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-  
नई दिल्ली, 31 मार्च। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस, जिनके सत्तासीन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उत्तराधिकारी होने की संभावना बढ़ती जा रही है, ने आज कहा कि देश के कार्यपालिका प्रधान के उत्तराधिकारी की "तलाश की कोई जरूरत नहीं" है। मोदी 2029 में देश के इस शीर्ष को पुनः संभालेंगे।

उनका यह बयान शिव सेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत के इस दावे के जवाब में आया है कि आरएसएस मोदी के उत्तराधिकारी की तलाश में है। आज सुबह राउत ने कहा था कि रविवार को हुई मोदी की आरएसएस मुख्यालय यात्रा का उद्देश्य संघ प्रमुख मोहन भागवत को यह संदेश देना था कि वे सेवानिवृत्त हो रहे हैं। नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुये, फड़नवीस ने कहा, "उनके

दूसरी ओर शिव सेना (यूबीटी) के वरिष्ठ नेता संजय राउत, दिन भर बयान देते रहे कि, मोदी नागपुर, आरएसएस के मुख्यालय संघ को बताने गये थे कि वे इस्तीफा देने जा रहे हैं तथा राउत के अनुसार, नया प्र.मंत्री महाराष्ट्र का बाशिंदा होगा।

फड़नवीस ने राउत की दोनों बातों का खण्डन किया और कहा, भारतीय संस्कृति में बाप के जीते जी उसके उत्तराधिकारी की बात करना बेहूदापन माना जाता है। यह मुगल कल्चर जरूर हो सकता है।

संघ के वरिष्ठ नेता, सुरेश भैयाजी जोशी, ने इस मुद्दे पर आगे कहा, "उनकी जानकारी में तो ऐसी कोई बात नहीं आई कि मोदी के उत्तराधिकारी के चयन पर कहीं भी चर्चा हुई है।

भैयाजी ने यह भी कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि 75 की उमर पार करने वाले कोई पद नहीं पा सकते सरकार में। वर्तमान में ही अस्सी वर्षीय, बिहार के नेता, जीतन राम मांझी केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य हैं।

(मोदी) उत्तराधिकारी की तलाश की कोई जरूरत नहीं है। वे हमारे नेता हैं और बने रहेंगे।"

वर्तमान विवाद की जड़ स्वयं मोदी में ही निहित है। उन्होंने 2014 में सत्ता में आने पर यह नीति प्रतिपादित की थी कि 75 वर्ष से अधिक उम्र के नेता सरकार का हिस्सा नहीं रहेंगे तथा पार्टी में भी पदाधिकारी नहीं रहेंगे। इस नीति के फलस्वरूप, एल.के. आडवाणी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा तथा अरूण शौरी जैसे नेता सेवानिवृत्त श्रेणी में आ गये थे। दरअसल, अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस समय जीवित थे, आडवाणी तथा जोशी के साथ ही, अप्रभावी तथा दायित्व-मुक्त कर दिये गये थे। इन सभी उग्रदराज नेताओं को मिलाकर बने "मार्गदर्शक मण्डल की न कभी कोई बैठक हुई और न भाजपा सरकार ने इससे कभी परामर्श ही किया। आरएसएस ने उग्रदराज लोगों को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रविवार व अन्य पेड लीव सेवा अवधि में शामिल मानी जाए

जयपुर, 31 मार्च। राजस्थान हाईकोर्ट ने केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें न्यायाधिकरण ने कर्मचारी की सेवा अवधि की गणना करते समय रविवार और अन्य सवैतनिक अवकाशों को ध्यान में नहीं रखा था। इसके साथ ही, अदालत ने प्रकरण को नए सिरे से सुनवाई के लिए पुनः केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष भेजा है। अदालत ने न्यायाधिकरण से कहा है कि वह दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका देकर नए सिरे

राजस्थान हाई कोर्ट ने यह फैसला देते हुए केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश को खारिज कर दिया और मामले की नए सिरे से सुनवाई करने को कहा।

से आदेश पारित करें। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने ये आदेश लाल चंद ज़िंदल की याचिका पर सुनवाई करते हुए। याचिका में अधिवक्ता सुरेश कश्यप ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता लालचंद ज़िंदल बैंक ऑफ बड़ौदा का कर्मचारी था। उसकी सेवाओं को समाप्त करने के खिलाफ उसने न्यायाधिकरण, कोटा में दावा किया था (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## क्या केरल में विधानसभा चुनाव से पूर्व शशि थरुर कांग्रेस में अपनी 'इम्पॉर्टेंस' बढ़वाना चाहते हैं?

या, वे वाकई में भाजपा को "जॉइन" करने की दिशा में बढ़ रहे हैं?

-श्रीनन्द झा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 मार्च। क्या अगले साल होने वाले केरल विधानसभा चुनावों से पहले शशि थरुर राज्य की राजनीति में अपनी अपरिहार्यता तथा अनिवार्यता स्थापित करना चाह रहे हैं? या फिर उनकी गतिविधियाँ उनके भाजपा में शामिल होने का संकेत हैं?

तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरुर ने पिछले 10 दिनों में तीन अवसरों पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की प्रशंसा की है। सबसे पहले, उन्होंने भारत सरकार की रूस-यूक्रेन नीति के सम्बंध "शर्मिन्दा होना" स्वीकार किया। दूसरी बार, जब भारत-अमेरिका के बीच टैरिफ के विषय में प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ताएं चल रही थीं, उन्होंने मोदी सरकार द्वारा अपनी बात मजबूती से रखने के लिये उसकी तारीफ की। तीसरा, और बिल्कुल ताज़ा अवसर वह था, जब थरुर ने मोदी सरकार की "वैकसीन डिप्लोमेसी" की प्रशंसा की।

विशेष रूप से उनकी यह अंतिम टिप्पणी राहुल गांधी तथा कांग्रेस पार्टी के अधिकृत रुख को चुनौती देती प्रतीत होती है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी

ऐसी चर्चाएं इसलिए उठ रही हैं, क्योंकि गत दस दिनों में शशि थरुर ने तीन बार प्र.मंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है।

पहली बार तो उन्होंने कहा कि वे एकदम गलत थे, जब वे प्र.मंत्री मोदी की यूक्रेन नीति की आलोचना कर रहे थे, यानि प्र.मंत्री मोदी की यूक्रेन नीति एकदम सही थी।

दूसरी बार, उन्होंने प्र.मंत्री मोदी की तारीफ में कहा कि प्र.मंत्री ने अमेरिका के "टैरिफ वॉर" में अपना (भारत का) पक्ष बढ़ी मजबूती से पेश किया।

तीसरी बार, उन्होंने कोविड के दौरान मोदी सरकार की "वैकसीन कूटनीति" की भी भारी प्रशंसा की थी।

(सीडब्ल्यूसी) की आगामी मीटिंग में, कांग्रेस एनडीए सरकार के "कोविड कुप्रबंधन" पर एक प्रस्ताव लाना चाहती है।

केरल, कुछ अन्य राज्यों की तरह, "रिवाॉल्विंग डोर" नीति पर चलते हुये, हर पाँच साल बाद सरकार बदलता है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ यह आशा संजोये हुये है कि 2026 में, जब एलडीएफ का कार्यकाल पूरा हो जायेगा, यूडीएफ सत्ता में आ जायेगा। सवाल यह है कि शशि थरुर कांग्रेस की संभावनाओं को कितना नुकसान पहुँचा सकते हैं? और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है - थरुर आखिर चाहते क्या हैं? थरुर सदैव ही स्वतंत्र-विचारक किस्म के व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने जहाँ आपातकाल तथा जवाहर लाल नेहरू के "पंचायती राज" का विरोध किया है, वहीं, हिन्दुत्व और भाजपा के साम्प्रदायिक एजेंडा के खिलाफ भी अपने सख्त विचार व्यक्त किए हैं। यही नहीं, उन्होंने वामपंथ की नीतियों का भी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## जेईई मेन्स परीक्षा से दो दिन पहले कोचिंग छात्र ने आत्महत्या की

लखनऊ निवासी उज्ज्वल ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी

कोटा, 31 मार्च (निस)। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे एक और कोचिंग छात्र की आत्महत्या का मामला सामने आया है। छात्र ने ट्रेन के आगे कूद कर आत्महत्या की है। इस वर्ष अब तक कोटा में दस छात्र आत्म हत्या कर चुके हैं। सूत्रों ने बताया कि 2024 में कुल 17 व 2023 में कुल 26 छात्रों ने आत्म हत्या की थी। गत सप्ताह नोट की तैयारी कर रहे बिहार के एक छात्र ने आत्महत्या की थी।

मूलतः लखनऊ, उत्तर प्रदेश का रहने वाला छात्र 18 वर्षीय उज्ज्वल मिश्रा 2 साल से कोटा में जेईई मेन और एडवांसड की तैयारी कर रहा था। छात्र को जॉईंट एंट्रेंस एग्जाम मेन की परीक्षा 2 अप्रैल को होने वाली थी, लेकिन उसके पहले ही उसने आत्महत्या कर ली। मृतक छात्र के पिता दीपक मिश्रा कृषि साईंटिस्ट हैं।

जीआरपी थाने के उपनिरीक्षक धर्म सिंह ने बताया कि घटना रविवार शाम 6.30 बजे के करीब हुई। मृतक छात्र

मृतक छात्र के पिता दीपक मिश्रा कृषि वैज्ञानिक हैं, वे बेटे को लेने आ रहे थे, उन्हें रास्ते में यह सूचना मिली।

उन्होंने बताया, बेटे से बात होती थी, उन्हें भी नहीं लगा कि वह ऐसा कुछ कर सकता है।

कोटा में इस वर्ष अभी तक 10 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। वर्ष 2024 में 17 और 2023 में 26 छात्रों ने आत्महत्या की थी।

कि मृतक लखनऊ निवासी उज्ज्वल मिश्रा है, जो इस समय राजीव गांधी नगर में रहकर जेईई के लिए कोचिंग कर रहा था। मृतक छात्र के पिता को घटना के संबंध में जानकारी दे दी गई है और वे कोटा पहुंच गए हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिवर्जनों को सौंप दिया है।

पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। मृतक छात्र के पिता ने बताया कि उनका बेटा राजीव गांधी नगर में रहकर 2 साल से कोचिंग कर रहा था तथा 29 मार्च को उसके बोर्ड एग्जाम खत्म हुए थे और 2 अप्रैल को जेईई मेन की परीक्षा थी, जिसका सेंटर कानपुर था। पिता बेटे को लेने कोटा आ रहे थे, लेकिन रास्ते में यह दुःखद सूचना उन्हें मिली। पिता ने कहा, समझ नहीं आ रहा बेटे ने ऐसा क्यों किया, उससे रोज बात होती थी। उन्होंने आशंका जताई कि उनका बेटा तनाव में था और अपनी बात किसी से साझा नहीं कर पा रहा था। उन्होंने बताया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

के शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चों में रखवाया गया है। उसकी जेब से मिली आईडी से उसकी पहचान हुई

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से मुठभेड़ जारी

दंतेवाड़ा, 31 मार्च। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बीजापुर में सोमवार को जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, दंतेवाड़ा और बीजापुर में सुरक्षाबलों के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में एक महिला नक्सली को ढेर कर दिया गया है और उसका शव भी बरामद कर

सुरक्षा बलों व नक्सलियों के बीच दंतेवाड़ा और बीजापुर में मुठभेड़ चल रही है, एक महिला नक्सली की मौत हो गई है।

जवानों ने महिला नक्सली के शव के साथ इंसान राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। मुठभेड़ अभी भी जारी है और जवानों के वापस आने के बाद अंतिम आंकड़े जारी किए जाएंगे।

## ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी में ममता बनर्जी का विद्यार्थियों से बातचीत व भाषण एक "फ्लॉप शो" रहा

इंग्लैण्ड में रह रही बंगाली जनता ने जमकर नारेबाजी करी, उनके खिलाफ और सार्वजनिक रूप से पूछा, कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के "रेप" और हत्या के बारे में

-अंजन रॉय-  
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-  
नई दिल्ली, 31 मार्च। ऑक्सफोर्ड कॉलेज में अपने तथाकथित भाषण की असफलता के बाद, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता की रैड रोड पर ईद के उत्सव में अपने 2016 के चुनावी अभियान की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने प्रदेश भाजपा पर "गंदा धर्म" अपनाने का आरोप लगाया।

उन्होंने एक बार फिर धार्मिक कार्ड खेला और कहा कि राज्य की मुस्लिम आबादी के साथ मजबूती से खड़े होने वाली वही हैं। उनके भतीजे ने आगे कहा, "यह देश सभी का है, "और विशेष रूप

से अल्पसंख्यकों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण है। हालांकि, भाजपा गंदा धर्म का पालन कर रही थी।

बनर्जी ईद की नमाज के दौरान हर समय उपस्थित होती हैं। इस बार उन्होंने इस बैठक को एक राजनीतिक मंच में बदल दिया, भाजपा पर विभाजन के धर्म का पालन करने का आरोप लगाया और कहा कि वह सभी धर्मों के लोगों के साथ मिलकर काम करने की पक्षधर हैं।

उन्होंने कहा कि भाजपा बंगाल में रामनवमी पर उत्सव मनाने की योजना बना रही है, जिसे उनकी सरकार ने पिछले वर्ष रोकने की कोशिश की थी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा इन उत्सवों के दौरान राज्य में साम्प्रदायिक

पर, ममता बनर्जी ने इस नारेबाजी के समक्ष हार नहीं मानी और किसी तरह का पश्चाताप दिखाना तो दूर की बात, आक्रामक ढंग से डटी रहीं।

यह कारण रहा कि इंग्लैण्ड से लौटते ही उन्होंने कोलकाता के "रैड रोड" पर आयोजित ईद समारोह का पूर्णतया राजनीतिक उपयोग किया और कहा, भाजपा "गंदे धर्म" की राजनीति कर रही है तथा गत वर्ष भाजपा ने रामनवमी पर भारी जुलूस निकालने की पेशकश की थी, जिसे उनके प्रशासन ने फेल कर दिया था।

तनाव भड़काने का प्रयास करती रही है। उन्होंने दर्शकों को चेतावनी दी कि यह एक जाल है और उन्हें उसमें नहीं फंसना चाहिए।

एक तरह से वो लोगों को साम्प्रदायिक हिंसा के लिए उकसा रही थीं, जिसकी वजह से राज्य में पूरी तबाही हो सकती है। यह आवश्यक है कि उन

पर अंकुश लगाया जाए, ताकि राज्य को दौर की एक और सबसे खराब हिंसा से बचाया जा सके।

ममता की पिछले ग्यारह वर्षों की राजनीति की कम से कम एक उपलब्धि रही है - बंगाल में मतों का लगभग पूर्ण ध्रुवीकरण हो गया है। यदि कोई निष्पक्ष चुनाव होता है, तो परिणामों में यह ध्रुवीकरण दिखेगा और मतदान पर इसका असर नजर आएगा।

लेकिन, तुणमूल कांग्रेस, जिसकी राज्य के प्रशासनिक तंत्र और पुलिस पर पूरी पकड़ है, स्वतंत्र मतदान को दबाने और बूथों पर वोट कैचर करने में सक्षम है।

उन्होंने आज फिर से अपने धर्म

आधारित राजनीतिक अभियान की शुरुआत की। यह कुछ नया नहीं था। सत्ता में बने रहने के लिए राज्य के मुसलमानों के वोट मांग रही थीं। इस प्रकार, वे अल्पसंख्यक मतों के सहारे खड़ी हैं, जबकि भाजपा ने खुद को मुख्य रूप से हिंदुओं का समर्थन प्राप्त करने वाली पार्टी के रूप में स्थापित किया है।

यह सब इंग्लैंड में एक असफल प्रदर्शन के तुरंत बाद आया। लेकिन उनका प्रमुख गुण था उनका विद्रोही रूढ़िवा। उन्होंने जो भी कहा, उसकी सर्वव्यापी निंदा हुई, पर उन्होंने कोई पछतावा नहीं दिखाया। कॉलेज छात्रों और अन्य लोगों के सामने उनका प्रदर्शन (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

म्यांमार में अब तक भूकंप के 36 झटके

मांडले, 31 मार्च। म्यांमार में 7.9 तीव्रता वाले घातक भूकंप आने के बाद, अबतक 36 झटके महसूस किए गए। म्यांमार के मौसम विज्ञान और जल

मौसम विभाग ने बताया कि शुक्रवार को 7.9 तीव्रता का भूकंप आया था, उसके बाद 2.8 से 7.5 तीव्रता तक के 36 झटके आ चुके हैं।

विज्ञान विभाग ने सोमवार को कहा कि आज सुबह तक 2.8 से 7.5 तीव्रता वाले 36 झटके महसूस किये गये। ये झटके पिछले शुक्रवार को स्थानीय समयानुसार दोपहर 12:51 बजे म्यांमार में आए 7.9 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप के बाद महसूस किये (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## विचार बिन्दु

हमारी आनंदपूर्ण बदकारियाँ ही हमारी उत्पीड़क चाबुक बन जाती हैं। -शेक्सपियर

## लोकतंत्र में आलोचना अपराध नहीं है

सर्कारों सामान्यतया आलोचना को सहन नहीं कर पातीं और कई बार आलोचकों के विरुद्ध राष्ट्रदोह की कार्यवाही तक प्रारंभ कर देती हैं। पुलिस भी उनके इस काम में पूरी सहायता करती है। यह दुर्भाग्य ही है कि पुलिस, जिससे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संविधान और कानून के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा है, वह भी सत्ता धारी दल की इच्छानुसार काम करने के लिए तत्पर हो जाती है।

देश में समय-समय पर लेखक, साहित्यकार, कवि, व्यंगकार एवं अन्य सृजन कर्मी हुए हैं, जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से शासन की कमियों को उजागर किया और जनता को जागृत करने का कार्य भी किया। जब अंग्रेजों का शासन था, तो स्वतंत्रता आंदोलन में साहित्यकारों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। गत कुछ वर्षों से ऐसा लगता है कि विभिन्न सरकारों की, आलोचना के प्रति सहिष्णुता कम होती जा रही है। समय-समय पर, विभिन्न न्यायालयों द्वारा इस बात को स्पष्ट कर दिए जाने के बावजूद भी कि, भारतीय संविधान नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, सरकारें ऐसे आलोचकों को प्रताड़ित करने में लगी रहती हैं। इसके दो उदाहरण हाल ही में सामने आए हैं। पहला, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद एवं आईसीसी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी का है, जो सांसद होने के साथ-साथ अच्छे शायर भी हैं।

29 दिसंबर, 2024 को जामनगर, गुजरात में इमरान प्रतापगढ़ी, जामनगर नगर परिषद के सदस्य अल्ताफ गफ्फार भाई खाफी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित एक सामूहिक विवाह समारोह में सम्मिलित होने जा रहे थे, तो प्रभूप्रभ में एक गीत बज रहा था जिसके बोल कुछ इस प्रकार थे :-

“ए खुन के प्यासो बात सुनो,  
गर हक की लड़ाई जुल्म से है  
हम जुल्म से इश्क निभा देंगे  
गर शम ए गरिया आतश है,  
हर राह वो शमा जला देंगे।  
गर लाश हमारी अपनों की,  
खतरा है तुम्हारी मसन्द का,  
उस रक की कसम, हम हंसते, हंसते  
उनकी लाशें दफना देंगे।  
ए खुन के प्यासो बात सुनो.....”

इस गीत को इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने..... अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। इसे समाज के विभिन्न वर्गों में फैलाने और आपस में भिड़ाने वाला ठहराते हुए, इमरान प्रतापगढ़ी के विरुद्ध भारतीय नागरिक संहिता की धारा 196, 197, 299, 300 के अंतर्गत एक आई आर दर्ज करा दी गई। इस एक आई आर को निरस्त करने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय में अपील दायर की, किंतु न्यायालय ने एक आई आर निरस्त करने से इनकार कर दिया। इसके विरुद्ध उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभय ओका और न्यायाधीश उज्जल भुयान की खंडपीठ ने 28 मार्च, 2025 को एक महत्वपूर्ण निर्णय के द्वारा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार मानते हुए, इमरान प्रतापगढ़ी के विरुद्ध दर्ज एक आई आर को निरस्त कर दिया। इस 64 पृष्ठों के निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत का गणतंत्र 75 सालों बाद इतना कमजोर नहीं है कि किसी कविता, लेख, व्यंग्य या स्टैट अप कॉमेडी से उसे खतरा उत्पन्न हो जाय।

मानवीय उच्चतम न्यायालय ने नागरिक के विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अहम मानते हुए यह कहा कि उसकी रक्षा करने का दायित्व न्यायपालिका सहित सबका है। पुलिस को भी एफ आई आर दर्ज करने के पहले यह देखना चाहिए था कि शिकायत के आधार पर कोई अपराध बना भी है या नहीं? केवल शिकायत के आधार पर ही पुलिस को यह सोचना चाहिए था कि क्या इस कविता से राष्ट्र की एकता, अखंडता या संप्रभुता पर कोई कोई खतरा है या नहीं? क्या इसके कारण भाषा, क्षेत्र, धर्म या समुदाय के आधार पर लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का काम किया गया है? इसके विपरीत, इस कविता में तो शासक के अत्याचार का उल्टा, प्रेम से देने की बात कही गई है। शायर ने तो यहां तक कहा कि यदि जुल्म के विरुद्ध आवाज उठाने के कारण हमारे लोगों की जान भी चली जाय तो हम उन्हें दफना देंगे। ये कविता उस व्यवस्था के विरुद्ध है, जो जनता के खून की प्यासी है। यह किसी दल या व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं है। पुलिस ने अपने दायित्व का निर्वहन सही तरह नहीं किया है। इसी आधार पर मानवीय उच्चतम न्यायालय ने इमरान प्रतापगढ़ी के विरुद्ध दर्ज एक आई आर को निरस्त कर दिया और यह अपेक्षा भी की, कि नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति, सरकारों को इस प्रकार का दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित दूसरा महत्वपूर्ण प्रकरण तब सामने आया जब प्रसिद्ध स्टैटअप कॉमेडियन और राजनीतिक व्यंग्यकार कुणाल कामरा ने मुंबई के खार स्थित 'द हैबिटेड स्टूडियो' में जनवरी, 2025 को रिकॉर्ड किए गए अपने एक स्टैट अप कॉमेडी के कार्यक्रम को यूट्यूब पर

आशा की जानी चाहिए कि उच्चतम न्यायालय द्वारा इमरान प्रतापगढ़ी वाले प्रकरण में दिए गए निर्णय की भावना को समझते हुए अनावश्यक रूप से एफआईआर दर्ज करने का जो सिलसिला कई राज्यों में प्रारंभ हुआ है, उस पर रोक लगेगी। इसके बावजूद भी यदि किसी को अपनी भावनाएं आहत होती हुई दिखाई दे तो वह कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।

में अपलोड किया गया। इससे उजेजित होकर शिंदे की शिवसेना के चेफ़े कार्यकर्ता राहुल कनल के नेतृत्व में होटल यूनी कांटेनल पहुंच गए और बहुत तोड़ फोड़ की। महाराष्ट्र सरकार ने कामरा को माफी मांगने के लिए कहा लेकिन उसने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि उसने कुछ गलत नहीं कहा, बल्कि वही कहा है जो दूसरे उप मुख्यमंत्री अजित पवार पहले ही कह चुके थे। शिवसैनिकों के कई नेताओं ने अपने लोगों का कामरा को शारीरिक नुकसान पहुंचाने के लिए आह्वान कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि यदि किसी के विचारों से कोई सहजता न हो, तो उसका प्रतिकार उसी प्रकार की कविता या लेख लिख कर किया जा सकता है या पुलिस में शिकायत करके कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। किसी भी परिस्थिति में, कानून हाथ में लेकर तोड़ फोड़ करने को सही नहीं ठहराया जा सकता। कामरा के प्रकरण में जिस प्रकार से महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री शिंदे ने उनके कार्यकर्ताओं द्वारा की गई कार्यवाही को 'क्रिया' की 'प्रतिक्रिया' बताकर उसका औचित्य सिद्ध करने का प्रयास किया, उसे कानून हाथ में लेने के लिए उकसाने की कहा जाएगा। लोकतंत्र में कानून का शासन होना चाहिए। न कि गुंडावादी करने वालों का। इस घटना के बाद स्थानीय नगर परिषद में भी बदले की कार्यवाही यूनि कांटेनल होटल के निर्माण को अवैध बताया है। यह उल्लेखनीय है कि जिस स्टूडियो में कामरा के कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हुई, वह इस होटल में था।

जब तक किसी की गतिविधियाँ हिंसक न हों, राष्ट्र की एकता पर आधारित न करे या फिर भाषा, धर्म, जाति और क्षेत्र के आधार पर कटुता तथा हिंसा न फैलाए, उसे प्रतिबंधित करना संविधान समर्थ नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए पहल करने ही होगी। जब कुणाल कामरा की गिरफ्तारी के लिए मुंबई पुलिस सहित उतावली देख रही थी तब उसने चेन्नई उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका प्रस्तुत की, जिस पर उसी दिन सुनवाई करके उसे अग्रिम जमानत देते हुए उसकी गिरफ्तारी पर 7 अप्रैल, 2025 तक रोक लगा दी।

इमरान प्रतापगढ़ी वाले प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि यदि समाज के अधिकांश लोगों को किसी के द्वारा लिखी या कही हुई कोई बात पसंद नहीं भी हो, तब भी उस व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रत्येक भारतीय नागरिक को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता देता है। जिन परिस्थितियों में इस स्वतंत्रता को निर्यजित किया जा सकता है, उसमें सरकार के विरुद्ध कोई बात कहना कर्तव्य सम्मिलित नहीं है।

देश संविधान और कानून से ही चल सकता है। यदि किसी को ऐसा लगता है कि किसी की मानहानि हुई है या किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो उसके लिए पुलिस में जाकर रिपोर्ट की जा सकती है अथवा न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा न करने, केवल गुंडागर्दी के बल पर किसी को भावना की धमकी देना अथवा तोड़फोड़ करना अपराध है। यह समझना होगा कि सरकार की आलोचना करना, अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, चाहे वह साहित्य की किसी भी विधा के माध्यम से हो। उसे प्रतिबंधित करना लोकतंत्र की भावना के विपरीत है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पॉडकास्ट में हाल ही में स्पष्ट कहा कि "आलोचना, लोकतंत्र की आत्मा है"। प्रधानमंत्री के कथन का स्वागत किया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री द्वारा इस प्रकार की बात कही जाने के बावजूद, महाराष्ट्र में उन्हीं के सहयोगियों द्वारा हिंसा की कार्रवाई करना किसी भी रूप में उचित नहीं है। यदि किसी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होना ही है तो इस प्रकार तोड़फोड़ करने के वालों के विरुद्ध होना चाहिए। न कि कुणाल कामरा जैसे स्टैटअप कॉमेडियन और व्यंग्यकार के विरुद्ध। ऐसा करने उन्होंने परोक्ष रूप से कामरा को लाभ ही पहुंचाया है क्योंकि उनके यूट्यूब को इस पोस्ट को अब तक एक करोड़ लोग देख चुके हैं।

आशा की जानी चाहिए कि उच्चतम न्यायालय द्वारा इमरान प्रतापगढ़ी वाले प्रकरण में दिए गए निर्णय की भावना को समझते हुए अनावश्यक रूप से एफआईआर दर्ज करने का जो सिलसिला कई राज्यों में प्रारंभ हुआ है, उस पर रोक लगेगी। इसके बावजूद भी यदि किसी को अपनी भावनाएं आहत होती हुई दिखाई दे तो वह कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।

पुलिस को किसी प्रकार का कदम उठाने से पूर्व यह देखना होगा कि क्या वास्तव में किसी व्यक्ति का कथन समाज को तोड़ने वाला है या देश की अखंडता को खंडित करने वाला है?

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, तपती पृथ्वी में शीतल पानी की फुहार जैसा है। यह अपेक्षा की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की भावना को समझते हुए देश के अन्य न्यायालय भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे एवं इसका विरोध हिंसा से करने वाले लोगों को सबक सिखाएंगे। किसी भी सभ्य समाज में, विशेष कर लोकतंत्र में, इस प्रकार की हिंसक घटनाओं का कोई स्थान नहीं है। लोगों को यह बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि सरकार या किसी जन प्रतिनिधि की आलोचना, अपराध नहीं है। जितना जल्द यह समझ में आ जाए उतना ही स्वयं उनके लिए, देश के लिए और लोकतंत्र के लिए अच्छा है।

-अतिथि सम्पादक,  
राजेश्र भाषावत  
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

## राजस्थान दिवस समारोह सप्ताह में याद किया जाए सामाजिक सुधारों के प्रतीक सन्त शिरोमणियों व लोकदेवताओं को



महावीर सिंह

30 मार्च 1949 को गठित वर्तमान राजस्थान राज्य एक संवैधानिक राजनीतिक इकाई के रूप में, भारत गणराज्य राष्ट्र के एक प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया। भारत की राजनीतिक आजादी का जो संघर्ष 1857 की क्रांति के साथ शुरू हुआ और अनेक बधाओं-पड़ोओं को सफलता पूर्वक पार करता हुआ 15 अगस्त 1947 को विदेशी दासता से मुक्ति के रूप में उसकी पराधीनता हुई। अभी सम्प्रभुता सम्पूर्ण गण राज्य बनने में कई ओर बाधाएं पार करनी थी। उनमें प्रमुख बाधा थी देशी रियासतों को मिला कर भारत गणराज्य की संवैधानिक इकाईयें बनाना।

किंतु राजनीतिक इकाई बनाना अपने आप में अनपेक्षित नहीं, यदि समाज में प्रेम, सौहार्द, भाईचारे का रस सस्कृत दायक माहौल न हो। राजस्थान में अभी तक जो सामाजिक भाईचारे का माहौल हम देख रहे हैं, उसमें राजस्थान नामक राजनीतिक इकाई के गठन से कहीं बहुत ज्यादा, अविस्मरणीय योगदान यहां के संतशिरोमणी महिलाओं व पुरुषों का है। राजस्थान स्थापन सप्ताह के मनाए जाने के वक्त उनको याद न किया जाए, उन्हें कुतर्जता के श्रद्धासुमन अर्पित न किये जाए तो समारोह अधूरा सा लगेगा।

इन लोगों द्वारा समाज सुधार की, कुरीतियों के त्याग की जो व्योति जलाई वह 1857 से बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। इनकी कहानियाँ, इनसे जुड़ी किंवदंतियाँ और इनके द्वारा रचित व गाये गए भजन राजस्थान के हर आंचल, गांव-गांव व शहरों में आम आदमी की जुबान में जीवित हैं। इस क्रम में कुछ सदैव स्मरणीय महिला पुरुषों पर अति संक्षिप्त चर्चा करते हैं।

सबसे पहले अनन्त कृष्णभक्त,

कवियत्री मीरा बाई को स्मरण करते हैं। एक सम्पन्न,सामंत राजपूत परिवार में, 1498 के आसपास जन्मी मीराबाई के कृष्ण के भजन सारे उतर व पश्चिमी भारत में आज भी गूँग व सुने जाते हैं। मीरा बाई जा वालनपोषण उनके दादा मेडता के राव दूदा के घर में बड़े लाडल चाव से हुआ। बचपन से ही उनका कृष्ण भक्तिमें मन रम गया। शादी मेवाड़ के सिर्सादिया राजवंश में राणा सांगा के पुत्र राव भोजराज से हुआ। भोजराज की जल्दी मृत्यु ही गई। उसके बाद, मीरा बाई का स्थापित कुरीतियों के विरुद्ध विद्रोह शुरू हुआ। उन्होंने राजपरिवार की ओर से दी गयी अनेक प्रत्याज्ञाओं, पीडाओं का सहजता से, श्री कृष्ण को स्मरण करते हुए सामना किया। वे प्रथा के अनुरूप सती नहीं हुईं। मन्दिरों में अधिक समय व्यतीत करने लगीं और आमजन से घुलने-मिलने लगीं। उन्होंने तत्समय अछूत समझी जाने वाली जाती के रैदास जी (रविदास) को गुरु अपनाया। अंत में राजमहल छोड़, कृष्ण से जुड़े स्थलों की यात्राएं करने लगीं। मीरा एक शांत सामाजिक करनी की वाहक बनीं।

इसी क्रम में, 1017 के लगभग, नागौर जिले के कालवा गांव में, जीवन राम डूडी, जाट परिवार के घर जन्मी कर्मा बाई भी स्मरण में आती हैं। एक अत्यंत साधारण, किसान परिवार में जन्मी कर्मा बाई की कृष्ण भक्ति की ख्याति राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश से ओडिशा तक फैली है। वो मीरा बाई से भी पहले एक शांत सामाजिक समरसता की शुरुआत को जन्म दे चुकी थी। उनकी श्री कृष्ण को खिंचे का भोग लगने वाली जो कहानी है वह लोक में शुद्ध हृदय से भाववर्धक का बेजोड़ उदाहरण है जसमें एक भोली लडकी अपने भावना को भोजन करने के लिए अपने धावले (आज का पेटिकोट) का पद करती है। उस जमाने में उस निर्भीक संत शिरोमणी महिला में जानाशयुरी की यात्रा की, जहां उनका खिंचे का भोग तैयार करने की विधि लोकप्रिय हुई। यह तत्समय की महिलाओं को अपने स्वयं के विचार बनाने व रखने का संदेश था व समाज को महिलाओं को बराबरी की दृष्टि से देखने का संदेश था। जात पात कुछ नहीं, सब बराबर।

इसी क्रम में एक ओर सन्तशिरोमणि महिला फूलाबाई का स्मरण होता है। फूलाबाई करीब 380 साल पूर्व, नागौर के समीप के गांव मौलवास में एक मांडू गौती जाट परिवार में जन्मी। फूला बाई बचपन से ही रामभक्ति में लीन रहने लगीं। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह ने इनकी भक्ति और पत्नी की ख्याति सुनी। वे अपनी रानियों सहित फूलाबाई के यहां, अपनी रानियों सहित गए। अपनी रानियों को उनसे सीख व उपदेश दिलवाए। इन्होंने 36 साल की उम्र में समाधि ले ली। फूल बाई के दोहों में पर्यावरण रक्षा, जीव दया, नशा परहेज का संदेश है। यह आज के भी गहरी चिंता के मुद्दे हैं।

जोधपुर के खेजडला की अमरता देवी बेनीवाल विरनोई की कैसे भूलाया जा सकता है जिसने सैंकड़ों वर्ष पूर्व, 1730 में जोधपुर के एक निरंकुश शासक को खेजडो के पहाड़ नीचे काटने की अपील की। निरंकुशता की निर्मम, नृशंस परकाष्ठा का अन्धम परिचय देते हुए, शासक के लोगों ने 363 लोगों के सिर धड़ से अलग कर पेंड काटे। अमरता देवी का बलिदान प्रकृति-पर्यावरण संरक्षण का अमर सन्देश दे गया। विरनोई समाज आज भी, अपने गांव-इलाकों के पशु, पक्षियों का अवैध शिकार नहीं करने देता और ओरण, चारागाह, जोड़ आदि सार्वजनिक भूमियों से पेड़ नहीं काटने देता। इसी क्रम में, अवसर के अनुरूप, राजस्थान के लोक देवताओं का स्मरण करना भी समीचीन है। तेजाजी महाराज, गोगाजी, रामदेवजी, झसनाथ जी, जांभोजी, पब जी, हडबू जी की कहानियाँ, किंवदंतियाँ आम आदमी की जुबान पर रहती हैं। इनके सालाना बड़े मेले लगते हैं जिसमें उतर भरत, गुजरात, महाराष्ट्र से लाखों भक्त इनके समाधि स्थलों अथवा मंदिरों में, मेलों में आते हैं।

संक्षेप में इन पर विचार करें तो वीर तेजाजी महाराज का जन्म नागौर के गांव खरनाल में एक जाट ताहड़ जी के यहां 29 जनवरी 1074 को हुआ। उन्हें गौर रक्षक, वचन पालक, योद्धा, समाज सुधारक, जात-पात विरोधी व शिव-नाम देवता के अवतार माना जाता है। अजमेर के सुरसुर गांव उनका समाधी स्थल है जहां हर मेला लगता है। राजस्थान, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात, हरयाणा से इनके अनुयायी

खरनाल, सुरसुर आते हैं। वर्षा ऋतु के प्रारम्भ होने पर चारों ओर कृषक, ग्वाले तेजाजी के गीत गाते सुने जाते हैं। किसान खेत में जब बीज दलबे की शुरुआत करता है तो तेजाजी आते हैं।

जाने हर गोगा जी का जन्म चुरू जिले के दरदेवा गांव में, राजपूत परिवार में हुआ था। गोगा मैडी उनका निर्वाण स्थल है जहां भाद्रपद माह में बड़ा मेला लगता है। यहां मंदिर 950 साल पुराना माना जाता है। इस मेले में यूपी, हरयाणा, राजस्थान, एमपी आदि से उनके अनुयायी आते हैं। पशुओं का भी बड़ा मेला लगता है। लोक कहानियों के अनुसार उन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है। वे हिन्दू, मुस्लिम एकता के प्रतीक माने जाते हैं, सभी धर्मावलम्बी उन्हें मानते हैं। सप दंश के जहर को दूर करने वाले देवता मन जाता है। लोक कहानियों के अनुसार गजनवी के साथ युद्ध में इनके 47 पुत्रों व 60 भतीजों का बलिदान हुआ था। कहा जाता है कि गजनवी से युद्ध में उसने इन्हें सानुक्त देवता समझ था क्योंकि युद्ध मैदान में उन्हें चहुं ओर गोगाजी ही दिखाई दे रहे थे।

अत्यंत लोकप्रिय, लोक पूज्य जन देवता रामदेवजी महाराज का जन्म पोरकरण के समीप रूणिका गांव में अजमल जी के यहां हुआ। उन्हें त्वर वंशीय राजपूत माना जाता है। रामदेवजी को पीरों का पीर, रामसा पीर भी कहा जाता है। राजस्थान, हरयाणा, पंजाब, गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश तक इनके अनुयायी फैले हैं। सद्भाव, रूढ़ियों का विरोध, जाति प्रथा का विरोध के प्रतीक है रामदेवजी महाराज। बादवा महां मंज में जब इनका नेत्र लगता है तो चारों ओर सड़कों पर पोकरण जाने वाले पैदल व वाहनों में जाने वाले जातहू ही दिखते हैं। लोग इनके रूकने, भोजन की व्यवस्था रखकों के लिए पर अत्यंत भक्ति भाव से करते हैं। यह सिलसिला दस दिन के लगभग चलता है।

इसी क्रम में विरनोई पंथ के संस्थापक जांभोजी व जसनाथी सम्प्रदाय के झसनाथ जी भी स्मरणीय हैं। जांभोजी, नागौर के पीपारस गांव में, पिता लोहट जी पंवार-जाट के घर में 1451 में जन्मे और 34 वर्ष की आयु में समरथल धोरे पर 20अ9, बीस नौ नियमों के साथ विरनोई पंथ की स्थापना की। उनका मुख्य सन्देश तो तब भी और अब

तत्समय से ज्यादा आज प्रसंगिक है-- पर्यावरण बचना, पेड़ों को न काटना और जीव दया। कहा जाता है, उन्होंने 51 साल तक भारत भ्रमण किया था। कई ग्रन्थ लिखे यथा निरंजन उपासना, गगन मंडल आदि। जसनाथ जी का जन्म बीकानेर के कतरियासर गांव में हमीर जी ज्योषी के घर, अनुमानतः 1482 में हुआ। वे निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले मूर्तिपूजा विरोधक थे। 24 साल की अल्पायु में समाधी लीन हो गए। जसनाथियों के लिए इन्होंने आचरण के 36 नियम यथा गे चड्डाँ के सेवा-रक्षा, उत्तम करणी, राह चलणा, मांसभक्षण नाहीं, रयामान जपना, होम (हवन)-जप, व्यञ्ज नहीं लेना, हुक्का-तम्बाखू से दूरी, सीदा-सट्टा नहीं, लहसुन-भांग नहीं आदि। आज भी उनके नियम सदाचार आचरण के उत्तम नियम हैं।

राजस्थान के पाली, जालौर, सिरौही, बाडमेर आदि में एक अन्य प्रमुख किसान जाती है जिसके अपने आदर्श पुरुष हैं। कलबी समाज में शिकारपुर गांव के राजाराम जी ने शिक्षा व समाज सुधार की अलख जगाई। इस वर्ष उनकी 143वीं जयंती है।

हमारे राजस्थान में कई पीर, ओलियों की मजारें हैं जो सदियों से हिन्दू, मुस्लिम एकता की मिसालें हैं। अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह है जहां हिन्दू और मुस्लिम दोनों मन के सकून के लिए हाजरी देते हैं। नरहड व ओर कई स्थानों पर इसी प्रकार के मुस्लिमों से जुड़े पवित्र स्थान हैं जहां हिन्दू-मुस्लिम दोनों ही अकीदत में शीश नवाते हैं। सिराँ के दसवें गुरु गोविंद सिंह जी की नौदंड यात्रा का मार्ग भी राजस्थान के दरदेवा, साहवा, नेरना, पुष्कर होके ही रहा है। और राजस्थान स्थापना दिवस समारोह सप्ताह मनाया

अधुना रह जाएगा यदि उन हथारों किसानों को, आम आदमियों को स्मरण व नमन न किया जिन्होंने आजादी के आंदोलन में अनेकानेक कष्ट सहें थे और कईयों को बलिदान भी देना पडा था। ओर उन किसानों को श्रद्धापूर्वक नमन किया जा सके। अतः राजस्थान के बलिदानों की नींव पर ही खडे हैं राजस्थान के भूमि सुधार कानून। -महावीर सिंह, पूर्व आई ए एस

## राजस्थान दिवस सप्ताह पर्यंत उत्सव में जनसरोकारों का प्रतीक है किसान सम्मेलन का आयोजन



डॉ. राजेश्र प्रसाद शर्मा

राजस्थान दिवस सप्ताह पर्यंत उत्सवों का आयोजन इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रदेश में राजस्थान दिवस पर इस तरह के बहु जनाहितताय-बहु जनासुखाय कार्यक्रमों को इसमें समाहित किया गया है। देखा जाए तो सप्ताह के कार्यक्रम महज औपचारिकता ना होकर के वर्ग विशेष या वर्गों को ही विविध विशेष को लक्षित वर्ग को सीधे लाभांनित करने के सार्थक प्रयास किये गये हैं। महिलाओं, किसानों, युवाओं, श्रमिकों यहां तक कि सभी वर्गों को लाभांनित करने वाली योजनाओं का समावेश किया गया है जिससे विकास की गंगा बह सके। खास बात यह कि राजस्थान दिवस सप्ताह पर्यंत कार्यक्रमों का प्रदेश

के भिन्न-भिन्न स्थानों पर आयोजन और उसी अनुसार लाभकारी योजनाओं की घोषणाएं, क्रियान्वयन व लाभार्थियों से सीधे संबन्ध कायम किया गया है। इससे यह तो साफ हो गया है कि सरकार की पहली प्राथमिकता जन सरोकार है और विकास की गंगा किसी एक वर्ग या क्षेत्र तक सीमित नहीं रहे कर सम्पूे प्रदेश तक विस्तारित हो सके।

राजस्थान दिवस सप्ताह पर्यंत उत्सवों की कड़ी में बीकानेर में किसान सम्मेलन आयोजित कर लक्ष्यार्थी काश्तकारों तक सीधे अनुदान राशि हस्तांतरित की गई है तो किसानों के हित की लाभकारी योजनाओं से काश्तकारों को जोडने के प्रयास किये गये। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर में 30 हजार काश्तकारों को 137 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की है। इस अवसर पर किसानों के लिए पीएस समान निधि राशि में वृद्धि, सीएमए वर सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के दिशा-निर्देश जारी की। इसके साथ ही सरकार ने गांवों में आपसी विवादों के कारण होने वाली मुकदमों बाजी को गंभीरता से लिया है और गैरसरकारी संस्थाओं से आग्रह किया है कि वे गांवों में जाकर काम करें और आपसी समझाईश से इस तरह के विवादों को समाप्त कराने के सार्थक प्रयास करें। क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी

होती हैं जिन्हें आपसी समझाईश से आसानी से निपटारा जा सकता है। वैसे भी सरकार किसानों के प्रति खास तौर समर्पित रही है। इस सरकार की बजट घोषणाओं में भी खेती किसानों पर खास ध्यान दिया गया है। किसानों की सुविधा के लिए कृषि कनेक्शन के किस्तुनो भार को बढाने हेतु स्वीच्छक भार वृद्धि योजना लागू की गई। किसानों को 1.26 लाख से अधिक कृषि कनेक्शन जारी करने के साथ ही किसानों को बिजली के बिलों में 27,339 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया। किसानों को राहत देने हेतु टावर क्षेत्र के साथ चारों तरफ एक मीटर तक अतिरिक्त क्षेत्रफल की गणना कर डीएलसी दर का दुगुना तथा प्रशाण लाईन के नीचे आने वाले क्षेत्रफल के पेटे डीएलसी की 30 प्रतिशत की दर से मुआवजा दिये जाने के प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनागत वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 17वीं, 18वीं एवं 19वीं किस्त हस्तांतरित की जा चुकी है। उक्त 17वीं किस्त में लाभांनितों की संख्या 65.30 लाख, 18वीं किस्त में 70.21 लाख एवं 19वीं के माध्यम से राज्य के 72.97 लाख किसानों को 1400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की गयी है। किसानों को लाभांनित करने की संख्या की दृष्टि से

राज्य का देश में पांचवा स्थान है। राज्य सरकार ने पी.एम. किसान सम्मान निधि योजनागत 24.97 लाख नये कृषकों द्वारा आवेदन करवाये गये। पूर्व में आवेदित 25.83 लाख कृषकों के अनिवार्य कार्य पूर्ण कर आगामी किस्तों से लाभांनित होने हेतु पात्र किये गए।

लघु, सीमांत, बटा दार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के बच्चों के लिए सत्र 2024-25 से राजकीय माहविद्यालयों में राजकीय निधि कोष में लिया जाने वाला शुल्क माफ किया गया। निःशुल्क संस्कर मक्का बीज मिनिफिकट कार्यक्रम के तहत अनुसूचित/सहरीया क्षेत्र के 8.39 लाख जनाजाति कृषकों को खरीफ, 2024 के अनर्गत मिनिफिकट वितरण किये गये। निःशुल्क हाईब्रिड सस्की बीज मिनिफिकट वितरण कार्यक्रम के तहत लगभग 50,000 जनजाति कृषकों को मिनिफिकट का वितरण किया गया। गेहूँ के समर्थन मूल्य 2,275 रुपये प्रति क्विंटल के ऊपर 125 रुपये का बोनस प्रदान कर 2,400 रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूँ खरीद कर किसानों को लाभांनित किया गया। 'राजस्थान कृषक समर्थन योजनागत' खाद्य विभाग द्वारा रबी विपणन सौजन्य 2024-25 के दौरान न्यूनतम सीजन मूल्य पर गेहूँ खरीद का कार्य दिनांक

10.03.2024 से 30.06.2024 तक पूर्ण कर 12.05 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करके 125 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 150.66 करोड़ रुपये बोनस राशि का भुगतान कर 94 हजार से अधिक किसानों को लाभांनित किया गया।

इसमें कोई दो राय नहीं होगी चाहिए कि खेती-किसानी सरकार की प्राथमिकता है और रहनी भी चाहिए। आज सारी दुनिया खेती किसानों को मजबूती प्रदान करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। क्योंकि खेती किसानों ने यह अहसास कर दिया है कि खेती किसानों ही ऐसे संकट के जौर में साथ दे सकती है। अनन्दाता की मेहनत की बदौलत ही देश कृषि क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और दलहन विकास और तिलहन विकास जैसे कार्यक्रमों पर बल देते हुए तिलहन-दलहन के क्षेत्र में नियात पर निर्भरता समाप्त करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। राजस्थान दिवस सप्ताह पर्यंत कार्यक्रमों की सहानुता इस मायने में की जानी चाहिए कि सरकार ने अनन्दाता और खेती किसानों को भी अपनी प्राथमिकता में रखा और सप्ताह का एक दिन किसान सम्मेलन को समर्पित किया।

-डॉ. राजेश्र प्रसाद शर्मा,  
(वरिष्ठ लेखक)

### राशिफल मंगलवार 1 अप्रैल, 2025



पंडित अनिल शर्मा

चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, चतुर तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत् 2082, भरणी नक्षत्र दिन 11:06 तक, विष्कुम्भ योग फ्रातः 9:43 तक, वणिज करण सायं 4:04 तक, चन्द्रमा आज सायं 4:30 से वृष राशि में संचार करेगा।  
ग्रह स्थिति: सूर्य-मीन, चन्द्रमा-मेष, मंगल-मिथुन, बुध-मीन, गुरु-वृष, शुक-मीन, शनि-मीन, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।  
आज रवियोग दिन 11:06 से आरम्भ होगा। अंगारक विनायक चतुर्थी है। शुक्ल योग, दग्ध योग रात्रि 2:32 से सूर्योदय तक है।  
श्रेष्ठ चौघडिया: चर 9:27 से 10:59 तक, लाभ-अमृत 10:59 से 2:04 तक, शुभ 3:36 से 5:09 तक।  
राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 6:22, सूर्यास्त 6:40

**मेष**  
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेगे। व्यावसायिक कार्यों में प्रातिफल अव्यय में वृद्धि होगी।

**वृष**  
मित्रों/रिश्तेदारों के कारण समय खराब हो सकता है। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा।

**मिथुन**  
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के लिए यात्रा संभव है।

**कर्क**  
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

**सिंह**  
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आशावास प्राप्त होंगे। अटकते हुए कार्य बनने लगेगे। व्यावसायिक अडचनें दूर होने लगेगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।

**कन्या**  
आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। धन प्राप्ति में विलम्ब हो सकता है। व्यावसायिक परेशानियाँ अभी बनी रहेगी। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

**तुला**  
तुला: परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक वार्ता सफल होगी।

**वृश्**

# शाही परंपरा के साथ शान से नगर परिक्रमा को निकली गणगौर माता की सवारी



उप मुख्यमंत्री दिवा कुमारी ने सोमवार को जनानी ड्योढ़ी में विधि-विधान से गणगौर माता की पूजा-अर्चना की।



गणगौर माता की सवारी को देखने के लिये जयपुर शहर के परकोटे में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी।

जयपुर। राजस्थान की शाही परंपरा, लोक संस्कृति और आस्था का प्रतीक गणगौर महोत्सव 2025 इस बार और भी भव्यता के साथ मनाया गया। त्रिपोलिया गेट से शाही लवाजमे के साथ निकली गणगौर माता की सवारी ने समूचे शहर को उत्सवमय बना दिया। देशी-विदेशी पर्यटकों की भारी भीड़ इस ऐतिहासिक सवारी को देखने के लिए उमड़ी और राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नजदीक से अनुभव किया।

इस वर्ष पहली बार सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा प्रदेशभर में लगी 200 एलईडी स्क्रिन्स के माध्यम से गणगौर महोत्सव का सीधा प्रसारण किया गया, जिससे वे श्रद्धालु भी इस दिव्य आयोजन का हिस्सा बन सके जो स्वयं सवारी में सम्मिलित नहीं हो पाए। इसके अलावा, पर्यटन विभाग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इस आयोजन का लाइव प्रसारण किया गया।

पर्यटन विभाग के उपनिदेशक उषेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि जयपुर के पूर्व राजपरिवार की महिला सदस्यों ने जनानी ड्योढ़ी में विधि-विधान से गणगौर माता की पूजा-अर्चना की। इसके पश्चात गणगौर माता की सवारी निकली, जिसे पूर्व राजपरिवार के महाराज सवाई पद्मनाभ सिंह ने त्रिपोलिया गेट पर विधिवत पूजा-अर्चना के बाद नगर

भक्तिमय बना दिया। इस बार शोभायात्रा में लोक कलाकारों की संख्या को बढ़ाकर 250 कर दिया गया। पुलिस बैंड और घूमर नृत्य की विशेष प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। अरवाड़ा संप्रदाय के अनुयायियों ने अपनी विशेष पारंपरिक प्रस्तुति दी। गणगौर माता के स्वागत हेतु तीन भव्य मंच तैयार किए गए। दो मंचों पर लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां हुईं, जबकि तीसरे मंच पर व्यापार मंडल के सदस्य और महिलाएं माता की पूजा और पुष्पवर्षा करतीं दिखीं। पुलिस बैंड और घूमर नृत्य की विशेष प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। पर्यटकों के लिए विशेष बैठने की व्यवस्था की गई। ड्रोन के माध्यम से पुष्पवर्षा कर माता की शोभायात्रा का भव्य स्वागत किया गया। शोभायात्रा के समापन पर तालकटोरा में राजस्थानी लोक कलाकारों ने विशेष प्रस्तुतियां दीं।

हिन्दू होटल टैरिस पर 500 पर्यटकों के बैठने की विशेष व्यवस्था की गई, जिसमें 200-300 विदेशी पर्यटकों के लिए अतिरिक्त स्थान निर्धारित किया गया। पर्यटन विभाग के उपनिदेशक उषेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि यह आयोजन राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर को संभालने और इसे वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। गणगौर महोत्सव न केवल आस्था और परंपरा का प्रतीक है, बल्कि यह देश-विदेश के पर्यटकों को राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का भी एक अनूठा माध्यम बन रहा है।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में बैंक को रैरा के क्षेत्राधिकार में होने एवं रैरा के कानून को सरफेसी एक्ट के प्रावधानों से सर्वोपरि होने का निर्णय दिया। जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया व बैंक की याचिका को खारिज कर दिया गया।

## ‘बिल्डर व बैंक की मिलीभगत से आवंटियों के हित नहीं होंगे प्रभावित’

जयपुर। राजस्थान रैरा अपील अदालत ने यूनिन बैंक ऑफ इण्डिया व जमीन मालिक की ओर से दायर की गयी अपील याचिका को खारिज कर रैरा के आदेश को यथावत रखा गया। अधिकरण ने माना की यदि बैंक द्वारा बिल्डर से मिलीभगत कर गलत तरीके से प्रोजेक्ट पर लोन स्वीकृत किया है तो इससे आवंटियों के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। अधिकरण के पीठासीन अधिकारी युधिष्ठिर शर्मा एवं राजेन्द्र कुमार ने यह आदेश अहिंसा सिकल स्थित आवासीय बिल्डिंग सनराजर्स के संदर्भ में दिए।

बिल्डिंग के आवंटियों की ओर से अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल ने बताया कि सनराजर्स प्रोजेक्ट एसएनजी रियल एस्टेट की ओर से साल 2014 में शुरू किया गया था। जिसमें फ्लैट बुल करवाकर आवंटियों ने करोड़ों रुपए का भुगतान बिल्डर को कर दिया। वहीं कई आवंटियों ने बैंकों से लोन भी लिया। वहीं साल 2016 में बिल्डर ने आन्ध्रा बैंक में प्रोजेक्ट की बिल्डिंग को गिरवी रखकर 15 करोड़ रुपए का लोन ले लिया और बाद में लोन राशि को खुर्द-

बुर्द कर दिया गया। बिल्डर द्वारा लोन को ना चुकाये जाने पर प्रोजेक्ट की बिल्डिंग को बैंक ने अपने कब्जे में ले लिया गया व आवंटियों के फ्लैटों को नीलामी कर राशि वसूले का प्रयास किया गया। आवंटियों को शिकायतों पर रैरा द्वारा बैंक की नीलामी प्रक्रिया को रद्द कर प्रोजेक्ट को अपने कब्जे में लेकर इमारत को पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस आदेश को अपील अदालत के समक्ष चुनौती दी गयी। जिसने अधिकरण ने यह माना की आवंटियों सद्भावी क्रेता है। जिसने इकरारनामा करने के बाद लाखों रुपयों की राशि बिल्डर को अदा की गयी है व उन्हें अपने फ्लैट प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। गौरतलब है कि इस प्रकरण में बैंक द्वारा पूर्व में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी।

## मत्स्य जयंती का आयोजन

जयपुर। मत्स्य युवा मंच की ओर से मत्स्य जयंती के उल्लेख में, देरा श्री शिक्षण सदन, राजस्थान विश्वविद्यालय में मीणा समाज द्वारा, श्री श्री 108 बालक दास महाराज के सानिध्य में मत्स्य जयंती का आयोजन किया गया। जिसमें जन्म रामगढ़ विधायक महेंद्र पाल द्वारा ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण, मीणा इतिहास लेखन, मीणा इतिहास को राजस्थान एजुकेशन बोर्ड में जोड़ने व जनजाति के विकास को लेकर युवाओं को शिक्षा और खेलों में आगे आने को कहा। वही कार्यक्रम में भाजपा वक्ता पंकज मीणा ने कहा कि मत्स्य जयंती पर अवकाश कि घोषणा कि जाये, एसटी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष नारायण मीणा, प्रोफेसर सोहनलाल मीणा ने अपने विचार रखे। संत बालक दास ने समाज को अपने धर्म, संस्कृति और अपनी परम्पराओं से जुड़े रहने के लिए कहा, उन्होंने कहा अगर युवाओं को संस्कार देने हैं और समाज का विकास करना है तो हमारी धार्मिक ग्रंथों से जुड़े रहना होगा।

# आर्थिक तंगी और गृह क्लेश के चलते पत्नी सहित विधवा चाची की हथौड़ा मारकर हत्या

जयपुर। करघनी थाना इलाके में सोमवार को एक युवक ने अपनी पत्नी सहित विधवा चाची की हथौड़ा मारकर हत्या कर दी। वहीं इसके बाद आरोपी ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवक ने अपने बेटे पर हमला करने की भी कोशिश की, लेकिन वह बचकर बाहर भाग गया। इधर बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी दौड़कर आए और पूरा मंजर देख को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आर्थिक तंगी और गृह क्लेश के चलते

हत्या और आत्महत्या की वारदात की गई है। फिलहाल पुलिस की ओर से मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम अमित कुमार ने बताया कि करघनी थाना इलाके के बेनाड स्टेशन निवासी पंकज कुमावत (36), उसकी पत्नी सुनीता कुमावत, विधवा चाची मधु कुमावत (55) और बेटे यांश (9) के साथ रहता था। आर्थिक तंगी और गृह क्लेश के चलते पंकज ने अपनी पत्नी और चाची की हथौड़ा मारकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद ने भी फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक पंकज कुमावत अटॉटी चलाता

था और सोमवार को दोपहर को घर आया और सबसे पहले पत्नी सुनीता कुमावत (33) पर हथौड़े से हमला किया। सुनीता के चीखने की आवाज सुनकर पास के कमरे में बैठा बेटा यांश कुमावत (9) भागकर आया तो वह फर्श पर गिरी पड़ी थी। आरोपी ने बच्चे पर भी हथौड़े से वार किया। शोर होने पर विधवा चाची मधु कुमावत (55) कमरे से बाहर आई और यांश

को पकड़कर पीछे किया तो आरोपित पंकज ने चाची पर हथौड़े से वार कर दिया। मौका मिलने पर यांश घर से बाहर भाग गया और जोर-जोर से चिल्लाने लगा। बच्चे को चिल्लाता देख कर कॉलोनी के लोग दौड़ते हुए घर की तरफ आए। इसी दौरान पंकज ने कमरे में चुसकर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। थानाधिकारी सवाई सिंह ने बताया कि पड़ोसियों ने घर में देखा तो फर्श पर खून से सनी दो लाशें पड़ी थीं और पंकज का शव फंदे से झूल रहा था। इस बाद पुलिस को जानकारी दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना

किया। पुलिस ने फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की टीम को मौके पर बुला कर मौके से सबूत जुटाए हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतका सुनीता कुमावत दो महीने की गर्भवती थी। वहीं आरोपी कुछ समय से परेशान चल रहा था। पुलिस टीम को सच के दौरान कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस ने मौके से आरोपी पंकज कुमावत, उसकी पत्नी और चाची के मोबाइल मोबाइल जब्त कर सीज कर लिए हैं। मोबाइल की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार सुबह मेडिकल बोर्ड से सभी का पोस्टमार्टम कर शव परिवर्तनों को सौंप दिए जाएंगे।

30 साल से बंद रास्ता खुला तो 10 कि.मी. कम हो गई लसाड़िया से चकवाड़ा की दूरी

## डिस्कॉम से राज्य सेवा में आए कर्मचारी को भी मिले पे प्रोटेक्शन व पूर्व सेवा लाभ : हाईकोर्ट

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जयपुर जिले में संचालित रास्ता खाले अभियान अब ग्रामीणों के लिए खरदान बना जा रहा है। फागी के लसाड़िया पंचायत के गड्डा से चकवाड़ा तक की दूरी 10 किलोमीटर कम हुई तो करीब 5 हजार ग्रामीणों की राह आसान हो गई। प्रशासन ने ना केवल 30 साल पुराना रास्ता खुलवाया बल्कि इस रास्ते पर ग्रेवल सड़क बनाने का भी काम जारी है।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कर्मचारी की सेवा से जुड़े मामले में कहा है कि डिस्कॉम से राज्य सेवा में आए कर्मचारी भी पूर्व सेवकों के लाभ व पे प्रोटेक्शन प्राप्त करने के हकदार है। वहीं अदालत ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता को नियमित वेतन

श्रृंखला और उसकी जेबीवीएनएल में पूर्व में की गई सेवा का भी लाभ दें। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश ममता सिंह की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया। याचिका में अधिवक्ता जोके जोशी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता पूर्व में जेबीवीएनएल में लेखाधिकारी के पद पर नियुक्त हुए थे। इसके बाद

में उसने राजकीय सेवा में भाग लिया और कॉलेज शिक्षा में सहायक आचार्य के पद पर उसे नियुक्त दी गई, लेकिन विभाग ने याचिकाकर्ता को उसकी पूर्व में की गई सेवा का लाभ और पे प्रोटेक्शन नहीं दिया। इसे याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि हनी सिंह चौहान के मामले में हाईकोर्ट कह चुका है कि अन्य सेवा से

राज्य की सेवा में आने पर भी कर्मचारी को पूर्व की सेवा के भी लाभ दिए जाएंगे। ऐसे में याचिकाकर्ता को पे प्रोटेक्शन से मना करना और पूर्व की सेवा के परिणाम नहीं देना गलत है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपौट ने याचिकाकर्ता को नियमित वेतन श्रृंखला और पूर्व सेवा का लाभ देने के लिए कहा है।

## मुख्यमंत्री ने विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के पोस्टर का विमोचन किया



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को उनके निवास पर श्री बड़ के बालाजी के 88वें वार्षिक मेले के पोस्टर का विमोचन भी किया।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर विभिन्न धार्मिक संस्थानों द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टरों का विमोचन किया। शर्मा से महामण्डलेश्वर मनोहरदास महाराज ने मुलाकात की। इस दौरान 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक आयोजित होने वाले सप्तदिवसीय

हनुमत् जन्मोत्सव के पोस्टर का विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री ने 10 अप्रैल को महावीर जयंती के अवसर पर राजस्थान जैन सभा द्वारा आयोजित होने वाली ‘एक जुलूस एक हम, आओ करे महावीर वन्दन’ शोभायात्रा तथा श्री बड़ के बालाजी के 88वें वार्षिक मेले के पोस्टर का विमोचन भी किया।

इस दौरान इन संगठनों ने अपने कार्यक्रमों की जानकारी दी तथा मुख्यमंत्री को कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने आयोजकों को शुभकामनाएं देते हुए संगठनों के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

# बाबू वीर कुंवर सिंह शौर्य जयंती पर गुंजेगा सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का शौर्य प्रदर्शन

जयपुर। बिहार में पहली बार भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का रोमांचक हवाई प्रदर्शन होने जा रहा है। यह आयोजन 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह शौर्य जयंती के अवसर पर गंगा पथ पर किया जाएगा। इस अभूतपूर्व आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए 1 अप्रैल को पटना जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समन्वय बैठक पटना सामाहणालय में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में वायुसेना, नगर निगम, जिला प्रशासन, यातायात पुलिस, एयरपोर्ट अथॉरिटी, और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। बैठक में सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के प्रदर्शन को सुचारु रूप से संचालित करने और सुरक्षा-व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने पर विस्तृत चर्चा होगी। सारण सांसद एवं पूर्व नागरिक विमानन मंत्री राजीव प्रताप रूडी, जो इस ऐतिहासिक आयोजन के मुख्य संयोजक हैं, ने बताया कि यह कार्यक्रम बिहार के लिए अत्यंत गौरवशाली क्षण होगा। उन्होंने कहा कि उनके विशेष आग्रह पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस आयोजन को स्वीकृति प्रदान की है। यह पहली बार होगा जब बिहार में इस स्तर का हवाई प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। रूडी ने जानकारी दी कि इस प्रदर्शन में भारतीय वायुसेना के नौ विमान बिहटा एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरकर गंगा पथ के ऊपर हवाई करतब प्रस्तुत करेंगे। इस दौरान विभिन्न प्रकार के एरोबेटिक मूवमेंट्स किए जाएंगे, जो युवाओं के लिए प्रेरणादायक होंगे और वीर कुंवर सिंह की वीरता को श्रद्धांजलि देंगे। बैठक में आयोजन के दौरान सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण की विशेष तैयारियों पर चर्चा होगी। जिला प्रशासन ने यातायात नियंत्रण, पार्किंग व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है। रूडी ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस



सारण सांसद एवं पूर्व नागरिक विमानन मंत्री राजीव प्रताप रूडी, जो इस ऐतिहासिक आयोजन के मुख्य संयोजक हैं, ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों से बैठक की।

## चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सेवा में बहाल करें : हाईकोर्ट

■ सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के प्रदर्शन की तैयारियों को अंतिम रूप देने हेतु उच्चस्तरीय बैठक

■ राजीव प्रताप रूडी के विशेष प्रयास से कार्यक्रम की स्वीकृति

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कोविड-19 के दौरान सेवा से हटाए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राहत देते हुए मैनेजमेंट कमेटी, भारतीय विद्या भवन, विद्याश्रम को निर्देश दिया है कि वे रामेश्वर लाल मीणा सहित अन्य को सेवा में सभी परिणाम सहित वापस बहाल करें। हालांकि अदालत ने इस संबंध में राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्थान अधिकरण के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें अधिकरण ने इन कर्मचारियों को बकाया वेतन का पचास फीसदी राशि का भुगतान करने को कहा था। अदालत ने कहा कि कर्मचारियों ने ऐसा कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया, जिससे यह साबित हो कि बर्खास्तगी अवधि में वे बेरोजगार थे। ऐसे में नो वर्क-नो पे के सिद्धांत के तहत बकाया भुगतान नहीं किया जा सकता। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश मैनेजमेंट कमेटी, भारतीय विद्या भवन, विद्याश्रम के निदेशक को याचिका पर दिया। मैनेजमेंट कमेटी के अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने बताया कि रामेश्वर लाल मीणा व

■ अदालत ने कोविड-19 के दौरान सेवा से हटाए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राहत दी

अन्य स्कूल के हॉस्टल मैस में कर्मचारी थे। कोविड के दौरान हॉस्टल और मैस को स्थाई रूप से बंद कर दिया गया और इन कर्मचारियों को सेवा समाप्त कर दी गई। जिसे अधिकरण में कर्मचारियों ने यह कहते हुए चुनौती दी कि उन्हें हटाने से पूर्व शिक्षा निदेशक से मंजूरी नहीं ली गई। इस पर अधिकरण ने 27 सितंबर, 2023 को आदेश देते हुए कर्मचारियों को बहाल कर उन्हें हटाने की तारीख 8 मार्च, 2021 से पचास फीसदी वेतन देने को कहा। इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया कि कर्मचारियों के पदों को समाप्त करने के चलते उन्हें शिक्षा निदेशक से मंजूरी की जरूरत नहीं थी। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कर्मचारियों को सेवा में बहाल करने को कहा है।

# रविवार की दोपहर गुम हुए बालक को कुएं से मृत निकाला

## सिविल डिफेंस कंट्रोल रूम में लोगों की सूचना पर तुरंत टीम मौके पर पहुंची

करौली, (कासं) जिला मुख्यालय पर गत रविवार को दोपहर के गुम हुए बालक का सोमवार को एक खुले कुएं में शव पड़ा होने पर उसे रेस्क्यू कर निकालते हुए चिकित्सालय में पोस्टमार्टम को कार्यवाही की गई।

जानकारी के अनुसार सिविल डिफेंस कंट्रोल रूम में लोगो द्वारा सूचना दी गई कि मासलपुर गेट के पास बागोर में एक बच्चा कुएं में गिर गया है जिसके बाद सिविल डिफेंस इंचार्ज प्रदीप कुमार नेतृत्व में सिविल डिफेंस कि टीम मौके पर पहुंची करीब 2 घंटे चले रेस्क्यू के बाद बच्चे को कुएं से बाहर निकल गया इस मौके पर पुलिस प्रशासन एवं क्षेत्रवासी मौजूद रहे सिविल डिफेंस इंचार्ज प्रदीप कुमार ने बताया कि कुएं में करीब 25 फिट तक पानी था अंदर पाइप मोटर और लड़कियों के बड़े-बड़े पेड़ भी थे जिससे रेस्क्यू में बहुत परेशानी आई



कुएं में गिरे बालक की सूचना पर सिविल डिफेंस इंचार्ज प्रदीप कुमार की मौजूदगी में बाहर निकाला।

मौके पर सिविल डिफेंस टीम के अखलाक अहमद को कुएं में उतारा

गया तथा बिलाई कि मदद से बच्चे को बाहर निकाल लिया गया इस इसके

बाद उसे राजकीय चिकित्सालय करौली भेजा गया जहां डॉ. ने उसे मृत्यु

■ गुम हुए बालक को ढूँढते हुए कुएं पर जाने पर चप्पल तैरते मिली

घोषित कर दिया मृतक बच्चे का नाम जुनैद बेग पुत्र रफीक बेग निवासी बागोर ढोलोखार का है बालक रविवार से लापता था।

आसपास लोगों के द्वारा तलाशी कि गई मगर कोई पता नहीं चला सोमवार प्रातः लोगो ने कुएं के पास आकर देखा तो कुएं में चप्पल तैरती मिली तथा पास में बोड़ी बनाने के हेतु लाये जाने वाला सामान था जो वह साथ लेकर आया था उसके मिलने से पता चला इस मौके पर सिविल डिफेंस टीम के सदस्य रामावतार, जयदेव, फरमान, भूपेंद्र, बालकृष्ण, बृजभूषण, तरुण आदि मौजूद रहे।

## गोदाम में लगी आग, 20 लाख रुपये का सामान जलकर स्वाहा

नदबई/भरतपुर, (कासं)। नदबई कृषि मंडी के समीप स्थित झाड़ू के गोदाम में अचानक किन्ही कारण के चलते आग लग गई। समीपवर्ती लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया। लेकिन, आग ने विकराल रूप ले लिया। बाद में नदबई, भुसावर, उच्चैन व खेडली दमकल की सहायता से करीब तीन घण्टा मशकत कर आग पर काबू पाया गया। लेकिन, इससे पहले गोदाम में रखा करीब 20 लाख रुपए का सामान पूरी तरह जलकर बर्बाद हो गया। सूचना पर थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह व अधिशाषी अधिकारी दीपा यादव ने भी मौके पर जांच पड़ताल की।

विभागीय सूत्रों की मानें तो नदबई निवासी संतोष मंगल व भुसावर निवासी शीतल कंसल ने कृषि मंडी के समीप किराए की दुकान में झाड़ू का गोदाम बना रखा। पीछित व्यापारी गोदाम बंद कर अपने घर गए। इसी दौरान अचानक अज्ञात कारण के चलते गोदाम में आग लग गई। गोदाम से आग की लपटें देख,

■ नदबई कृषि मंडी के समीप झाड़ू के गोदाम में किन्ही कारण से लगी आग

■ आग की लपटें देख लोगों ने मालिक को सूचना दी

समीपवर्ती लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया। सूचना पर नदबई नगर पालिका दमकल की सहायता से आग बुझाने का प्रयास किया। लेकिन, आग ने विकराल रूप ले लिया। बाद में खेडली, उच्चैन व भुसावर दमकल की सहायता से करीब तीन घण्टा मशकत कर आग पर काबू पाया। लेकिन, इससे पहले गोदाम में रखा करीब 20 लाख का सामान जलकर स्वाहा हो गया। इस संदर्भ में समाचार लिखे जाने तक पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ।

## दो लोगों पर हमला कर बाड़े में छुपा लेपर्ड

डुंगरपुर, (कासं)। धंभोला पंचायत के घाटी मोहल्ले में लेपर्ड के आने से दहशत का माहौल बन गया है। लेपर्ड ने दो लोगों पर हमला किया और पशु बाड़े में जाकर छुप गया। घटना की सूचना पर वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वहीं, करीब 9 घंटे बाद उदयपुर से आए शूटर ने लेपर्ड को ट्रेकुलाइज किया। स्वास्थ्य जांच के बाद वन विभाग लेपर्ड को जंगल में छोड़ा। रात में लेपर्ड आने का पता तब चला जब सोमवार सुबह स्थानीय निवासी हरीश डामोर अपने भूसा घर में भूसा डालने गए थे। इसी दौरान भूसा घर के अंदर बैठे लेपर्ड ने उन पर हमला करने की कोशिश की। हरीश ने तुरंत भूसे का ग-र लेपर्ड पर फेंक दिया और जान बचाकर भाग निकले। उन्होंने तुरंत लोगों को लेपर्ड की सूचना दी। इस दौरान लेपर्ड ने ग्रामीण सुरेश और बंशी पर पंजों से हमला कर दिया।

## घूमर 2025 का भव्य आयोजन किया

भीलवाड़ा, (कासं)। कोहिनूर सेवा समिति के तत्वावधान में राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर सेठ गजाधर मानसिंह का धर्मशाला में घूमर 2025 का भव्य आयोजन किया गया। समिति संयोजक कवि रामनिवास रोनी राज ने बताया कि शुभारंभ राजेंद्र सिंह देश प्रेमी की सरस्वती वंदना से हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर एस. एम. गंभीर थे। अध्यक्षता ओम प्रकाश सेन (डायरेक्टर ओम कंस्ट्रक्शन) ने की तथा विशिष्ट अतिथि समाज सेवक कैलाश लड़ा थे। इस अवसर पर नन्ही बालिकाओं की बेहतरीन नृत्य की प्रस्तुतियों से समूचा सभागार तालिया की गड़गड़ाहट से झूम उठा। रिद्धिमा सोलंकी व प्राची सोलंकी ने "मैंने पायल है खनकाई अब तू आजा ओ हरजाई" नृत्य प्रस्तुत कर सभी का दिल जीत लिया, कुमारी दिव्या जैन ने "केसरिया

बनडा ओ थारी सूरत प्यारी लागे" प्रस्तुत कर खूब तालिया बटोरीं। अर्पिता खोईवाल व अंजलि खोईवाल ने, "गौरी थोड़ा हलवे हलवे चलो कहीं मौच नहीं लग जाए" प्रस्तुत कर खूब वाह वाह लूटी। हंसा नागोरी व रेखा सोलंकी ने "ओ म्हारी घूमर छे नखराली ये माय, घूमर रमवा में जास्मि" प्रस्तुत किया। उपनगरपुर से आए प्रसिद्ध गीतकार गोपाल टेलर ने "रंग रंगीलो म्हारो राजस्थान आन-बान रो प्यारो राजस्थान" पढकर कार्यक्रम को परवान चढ़ाया। कवि जयम सुंदर तिवारी, मनोहर कुमावत व श्यामप्रकाश खोईवाल ने राजस्थान के परिवेश पर काव्या पाठ किया। उपाध्यक्ष रमेश चौहान ने "बड़ी लंबी बुवाई, चार दिनों का प्यार ओ रब्बा" गीत प्रस्तुत किया। इस अवसर पर संरक्षक छीतर मल लड़ा, लायंस क्लब शांति की अनिता आर्य, सुलक्षणा शर्मा उपस्थित थे।

## गणगौर माता की शोभायात्रा को देखने के लिए जन सैलाब उमड़ा

सूरौट, (कासं)। देश की आजादी से पहले जयपुर रियासत का प्रमुख ठिकाना रहे सूरौट कस्बे में सोमवार को रियासत कालीन परंपराओं के साथ गणगौर माता की सवारी निकाली गई। बैंड बाजों एवं आकर्षक झांकियों के साथ निकाली गई।

गणगौर माता की शोभायात्रा को देखने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा, करीब 281 साल पहले जयपुर की तर्ज पर सूरौट में शुरू किए गए गणगौर मेले में अभी भी रियासत कालीन परंपराओं की झलक दिखाई दी। राजस्थान प्रदेश में जयपुर के बाद सूरौट में ही बड़े स्तर पर गणगौर माता की शोभा यात्रा निकलती है। शोभायात्रा से पहले राजपूत समाज के लोगों और सर्व समाज के पंच पटेलों ने विधिवत रूप से गणगौर माता की पूजा अर्चना की गणगौर माता की शोभायात्रा शाम करीब 5 बजे रियासत कालीन गढ़, सूरौट महल से शुरू हुई, गणगौर माता की शोभायात्रा में काफी संख्या में सर्व समाज के पंच पटेल

■ सूरौट कस्बे में रियासत कालीन परंपराओं के साथ निकाली गणगौर माता की सवारी

शामिल रहे शोभायात्रा बड़ मंदिर, मुख्य चौराहे, पीपनबी बैंक, स्टेशन रोड, पुलिस चौकी, बाजार एवं बस स्टैंड होती हुई गढ़ एवं सूरौट महल में पहुंची। शोभायात्रा में सूरौट सरपंच पिकेश शर्मा, प्रतिनिधि रामअवतार शर्मा, पूर्व सरपंच नत्थु सिंह राजावत पूर्व सरपंच विशान महावर, उपसरपंच श्यामसुंदर सैनी, दिलीप सिंह राजपूत, चौरेंद्र राजपूत, टीटी शर्मा, गोपाल राजपूत, विश्राम मीणा, नरेंद्र बाबा, रमन शर्मा, अनिल राजपूत, भारत, विशाल, रमाकांत शर्मा, मंगेश गुप्ता, ठंठीलाल सैनी, विवेक शर्मा, रवि राजपूत, भोला राजपूत, मोहित राजपूत सहित काफी संख्या में सर्व समाज के पंच पटेल और

राजपूत समाज के लोग शामिल हुए थाना प्रभारी महेश चंद्र मीणा के नेतृत्व में पुलिस पहर और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गणगौर माता की सवारी निकाली गई। शोभायात्रा में विष्णु भगवान, शिव पार्वती, लव कुश भगवान, मीन भगवान भगतसिंह, जय जोहार, राधा कृष्ण सहित कई झांकियों निकाली गईं आकर्षक झांकियों को और गणगौर माता की सवारी को देखने के लिए लोग मकानों और दुकानों की छतों पर जमा हो गए आकर्षक झांकियों ने ग्रामीणों का मन मोह लिया। मेले में रियासतकालीन परंपराओं की झलक देखने की मिली।

गणगौर माता की शोभायात्रा का कस्बे में कई स्थानों पर स्वागत किया गया मेले के दौरान यहां गांधी स्मारक मैदान में रहटको एवं मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था की गई। लोगों ने रहटकों में झूलकर दिन भर खूब लुप्त उठाया। तालाब को जाने वाले मार्ग में अस्थायी दुकान में लगाई गईं, जिन पर दिनभर भीड़ रही। मेले में काफी संख्या में पुलिस

जाका तैनात रहा, थाना प्रभारी महेश चंद्र मीणा, गजराज सिंह मीना, सहित काफी संख्या में पुलिस कर्मियों ने मेले में व्यवस्थाएं देखी आज मंगलवार शाम को निकलेगी बड़ी गणगौर की सवारी गणगौर मेले के अवसर पर कस्बा सूरौट में 2 दिन घूमघाम से गणगौर माता की सवारी निकाली जाती है।

1 अप्रैल को भी भव्य तरीके से गणगौर माता की शोभायात्रा निकाली जाएगी जिकड़ी गायन दंगल में कलाकारों ने विभिन्न प्रसंगों पर प्रस्तुत की रचनाएं सूरौट गणगौर मेले के अवसर पर सौताराम जी के मंदिर के सामने बनाए गए पांडाल में सोमवार को दोपहर जिकड़ी गायन दंगल शुरू किया गया। जिकड़ी गायन दंगल में कलाकारों ने सहित विभिन्न प्रसंगों पर रचनाएं प्रस्तुत की मेला कमेटी के सदस्य नरेंद्र बाबा, जाकिर हुसैन एवं नरेंद्र कौशिक टीपू विजयवर्गीय व विश्राम मीणा ने बताया कि जिकड़ी दंगल में विभिन्न प्रसंगों पर रचनाएं प्रस्तुत की।

## श्रीगंगानगर में इस बार गेहूं का बुवाई रकबा ढाई हजार हैक्टेयर कम

श्रीगंगानगर, (कासं)। जिले में गत वर्ष से इस बार करीब 6 ढाई हजार हैक्टेयर गेहूं का बुवाई क्षेत्र कम है। ऐसे में उत्पादन भी इस बार बीते वर्ष से कम रहेगा। व्यापारियों की मानें तो इस बार गेहूं के भावों में भी तेजी रहने से एमएसपी से ऊपर के भावों में बिकने के आसार हैं। इसी स्थिति में सरकार को भी कम ही गेहूं मिलने की उम्मीद है। श्रीगंगानगर जिले में गत वर्ष 2, 21,120 हैक्टेयर गेहूं बुवाई का रकबा था और करीब 12 लाख एमटी गेहूं का उत्पादन हुआ था। इस बार जिले में गेहूं की बुवाई के समय सिंचाई पानी की कमी के चलते बुवाई कम हुई। कृषि विभाग के अधिकारियों ने भी किसानों को गेहूं की बजाय कम सिंचाई पानी की मांग वाली फसलों की बुवाई अधिक करने की सलाह दी।

ऐसे में 2, 18,556 हैक्टेयर गेहूं का बुवाई हुई और अब उत्पादन भी इस बार 10.91 लाख एमटी के आसपास होने की उम्मीद है, जो कि बीते वर्ष से करीब एक लाख एमटी कम है।

व्यापारियों की मानें तो करीब 9 लाख एमटी गेहूं ही मार्केट में आएगा। बाकी गेहूं किसान वर्ष भर उपयोग के लिए घरों में रखेंगे। इस बार दक्षिण भारत के राज्यों से गेहूं की डिमांड अधिक रहेगी। हालांकि इस बार सरकार ने गेहूं का एमएसपी 2450 रुपए व 100 रुपए बोनस यानि 2550 रुपए प्रति किंवल तय किया है, साथ ही श्रीगंगानगर जिले से 5.50 लाख एमटी गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन मांग को देखते हुए इस बार गेहूं के भावों में तेजी रहने की संभावना है। किसानों ने उपलब्ध सिंचाई पानी के आधार पर ही गेहूं की बुवाई की। इस कारण गेहूं का बुवाई रकबा भी बीते वर्ष से करीब 6 ढाई हजार हैक्टेयर कम रहा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में एक फरवरी से ही सिंचाई पानी किसानों को नहीं मिल रहा है। ऐसे में आईजीपी क्षेत्र में गेहूं की फसल प्रभावित हुई है। मुख्य रूप से सूरतगढ़ व राजवा क्षेत्र में करीब 50,000 हैक्टेयर में बोई गेहूं की फसल इस बार कमजोर है।

## ताश के पत्तों पर जुआ खेलते छह आरोपी गिरफ्तार

सादुलपुर, (निंसां)। राजगढ़ थाना पुलिस ने बालाजी कॉलोनी कस्बा राजगढ़ में रविवार को मुखबीर की सूचना पर दबिस देकर ताश के पत्तों पर जुआ खेलने के आरोप में छः आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से ताश के पत्ते एवं 20070 रुपए नगदी जप्त कर 13 आरोपीजों के तहत थाने में प्रकरण दर्ज किया है। राजगढ़ थानाधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि ओमप्रकाश हैड कास्टेबल मयसुनील कुमार हैड कास्टेबल, जितेंद्र कास्टेबल, संदीप कुमार कास्टेबल, रवि कुमार कास्टेबल, कुलदीप कुमार कास्टेबल मय सरकारी जौप चालक सतबीर कास्टेबल गस्त करते हुए कस्बे के साखू सर्किल पर पहुंचे तो मुखबीर से सूचना मिली कि बालाजी कॉलोनी कस्बा राजगढ़ के क्रीकर पेड के निचे 5-6 व्यक्ति ताश के पत्तों पर रूपये का दाव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर उक्त पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो एक किकर के पेड निचे आम रास्ता पर छः व्यक्ति आमने-सामने बैठे हुए ताश के पत्तों पर जुआ खेलते हुए दिखाई दिये। जिस पर ताश के पत्तों पर जुआ खेल रहे पहले व्यक्ति का नाम पता पुछा तो अपना नाम विरेन्द्र बताया।

## दौराई-टनकपुर-दौराई नई रेल सेवा का शुभारंभ



रेल यात्रियों को सोगात की कड़ी में नई रेल सेवा का शुभारंभ विधायक अजमेर (दक्षिण) अनिता भदेल की उपस्थिति में हुआ।

अजमेर, (कासं)। रेल यात्रियों को सोगात की कड़ी में गाडी संख्या 15091/15092, दौराई-टनकपुर-दौराई नई रेल सेवा का शुभारंभ दिनांक 31 मार्च 2025 को मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भारत सरकार भागीरथ चौधरी द्वारा माननीया विधायक अजमेर (दक्षिण) अनिता भदेल की गरिमामयी उपस्थिति में दौराई स्टेशन पर किया गया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक बीसीएस चौधरी के अनुसार दौराई स्टेशन पर आयोजित इस कार्यक्रम के अंतर्गत फूलों से सुसज्जित गाड़ी संख्या 15091 दौराई- टनकपुर को अतिथियों द्वारा मंडल रेल प्रबंधक राजू भूतड़ा सहित अन्य रेल अधिकारियों, कर्मचारियों व आमजन की उपस्थिति में 16.05 बजे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान

कल्याण राज्य मंत्री भारत सरकार भागीरथ चौधरी ने अपने उद्घोषण में अजमेर संसदीय क्षेत्र को नई ट्रेन की यह सोगात देने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का हार्दिक आभार जताया और धन्यवाद दिया। उल्लेखनीय है कि रेलवे प्रशासन द्वारा अतिरिक्त यात्री यातायात को देखते हुए यात्रियों को सुविधा के

लिए टनकपुर-दौराई (अजमेर)- टनकपुर सप्ताह में 04 दिन नई रेलसेवा का संचालन किया जा रहा है। गाडी संख्या 15092, टनकपुर-(दौराई) अजमेर सप्ताह में 04 दिन नई रेलसेवा 30 मार्च से टनकपुर से प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार व रविवार को 18.20 बजे रवाना होकर आले दिन 13.55 बजे दौराई पहुंचेगी।

## ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 9.70 लाख की ठगी

डुंगरपुर, (कासं)। साइबर थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाली गैंग के 2 शांति आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों को गुजरात के राजकोट और वडनगर से पकड़ा है। आरोपियों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग टीप (डब्बा ट्रेडिंग) के नाम पर 9.70 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। साइबर थानाधिकारी गिरधालाल ने बताया कि दिलीप मेघवाल पुत्र धूलेश्वर मेघवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें बताया कि ऑनलाइन ट्रेडिंग टीप (डब्बा ट्रेडिंग) से बड़ी कमाई का लालच दिया गया। जिससे वह लालच में आ गया। उसका डिमेंट अकाउंट खुलवाया गया और उससे 9.70 लाख रुपए ऑनलाइन ठगी कर ली। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कराते हुए जांच शुरू कर दी। थानाधिकारी के साथ ही हैड कॉन्स्टेबल मदनलाल, महावीर सिंह, मगन, अश्विष, साइबर सेल के हेमेश सिंह, चुन्नीलाल की टीम ने तपतीशु शुरू की। पुलिस ने जिस अकाउंट में पैसे जमा करवाए गए।

## अफीम उपज की खरीद आज से

भीलवाड़ा, (कासं)। राजस्थान के अफीम काश्तकारों द्वारा फसल वर्ष 2024-25 के दौरान उगाई गई अफीम उपज, जिसमें अफीम गोंड तथा बिना चीरा लगा अफीम डोडा अर्थात् सीपीएस दोनो शामिल हैं, के खरीद का काम 1 अप्रैल 2025 से शुरू होने जा रहा है। उप नारकोटिक्स आयुक्त, कोटा (राज.) नरेश बुंदेल ने बताया कि आजादी के बाद से राजस्थान में अफीम की खेती के नियन्त्रण तथा अफीम फसल खरीद का काम भारत सरकार द्वारा स्थापित नोडल एजेंसी केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा किया जाता रहा है। इसमें बताया कि नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा जिला अफीम अधिकारी कार्यालयों के अन्तर्गत स्थापित 8 अफीम कृषि प्रभागों भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ प्रथम, द्वितीय, तृतीय, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ प्रथम एवं द्वितीय के माध्यम से किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस साल अफीम फसल खरीद के लिए जिला-बादा, भीलवाड़ा, झालावाड़, कोटा में एक-एक, जिला-प्रतापगढ़ में दो तथा जिला-चित्तौड़गढ़ में तीन अफीम तील तथा खरीद सेन्टर बनाए गए हैं। जिसमें लगभग 28 हजार पांच सौ काश्तकारों से अफीम गोंद उपज तथा लगभग 13

हजार छह सौ. काश्तकारों से बिना चीरा लगा अफीम डोडा अर्थात् सीपीएस उपज की खरीद की जाएगी।

अफीम गोंद खरीद का काम, चित्तौड़गढ़ प्रथम, द्वितीय, तृतीय खण्ड के काश्तकारों से 1 अप्रैल से, प्रतापगढ़ द्वितीय खण्ड, भीलवाड़ा के काश्तकारों से 2 अप्रैल से, प्रतापगढ़ प्रथम तथा झालावाड़ के काश्तकारों से 3 अप्रैल से शुरू होगा। कोटा प्रभाग के अन्तर्गत, रामगंज मण्डी तहसील के काश्तकारों से अफीम गोंद खरीद का काम 5 अप्रैल से, रामगंजमण्डी केन्द्र पर तथा अन्य सभी काश्तकारों से 12 अप्रैल से छीपाबडोडो केन्द्र पर शुरू किया जाएगा। काश्तकारों से बिना चीरा लगा अफीम डोडा अर्थात् सीपीएस उपज की खरीद का काम, झालावाड़ में 8 अप्रैल चित्तौड़गढ़ द्वितीय खण्ड में 11 अप्रैल से, प्रतापगढ़ प्रथम खण्ड में 12 अप्रैल से, प्रतापगढ़ द्वितीय खण्ड में 13 अप्रैल से, चित्तौड़गढ़ प्रथम एवं तृतीय खण्ड में 15 अप्रैल से, भीलवाड़ा में 16 अप्रैल से शुरू होगा। कोटा प्रभाग के अन्तर्गत, रामगंज मण्डी तहसील के काश्तकारों से बिना चीरा लगा अफीम डोडा अर्थात् सीपीएस का काम 6 अप्रैल से, रामगंजमण्डी केन्द्र पर तथा अन्य सभी काश्तकारों से 17 अप्रैल से छीपाबडोडो केन्द्र पर शुरू किया जाएगा।

## किशारी के आत्महत्या के मामले में एक आरोपी पकड़ा

जालोर, (निंसां)। जालोर जिले के आहोर पुलिस ने सोमवार को नाबालिग द्वारा आत्महत्या दुष्करण प्रकरण में शरीक एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया।

जालोर पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद्र यादव के निदेशन में नाबालिक द्वारा आत्महत्या के मामले में परिजनों द्वारा संदेह हाजिर करने पर प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मोटारम अति. पुलिस अधीक्षक जालोर एवं जयराम वृताधिकारी वृत्त आहोर के सुपरविजन रामप्रतापसिंह निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी आहोर के नेतृत्व में पुलिस थाना आहोर के प्रकरण का खुलासा करने हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा प्रकरण में संदिग्ध से पूछताछ व अनुसन्धान से विधि से संघर्षत किशोर के विरुद्ध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर पुलिस संरक्षण में लिया गया, विधि से संघर्षत किशोर से अनुसन्धान कर प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट जालोर के समक्ष पेश कर बाल सुधार गृह में भेजा गया। इसी क्रम में अग्रिम अनुसन्धान जारी रखते हुए

त्वरित कार्यवाही कर अन्य संलिप्त आरोपी खुशाल सोलंकी पुत्र राजेंद्र कुमार जाति माली उम्र 18 वर्ष 05 माह, निवासी माधोपुरा को गिरफ्तार किया गया। आरोपी खुशाल सोलंकी से अनुसन्धान कर अवकाश कालीन मजिस्ट्रेट जालोर के समक्ष पेश किया। जहां से न्यायिक अभिरक्षण में भेजा गया। प्रकरण में विस्तृत एवं सभी पहलुओं पर गहनता से अनुसन्धान किया जा रहा है।

संक्षिप्त घटना- प्रार्थी बाबू लाल पुत्र पुनमाजी जाति घाँची उम्र 60 वर्ष नि. माधोपुरा ने एक रिपोर्ट थाना उपस्थित होकर इस आशय की पेश की कि मेरे पत्नीज की नाबालिक पुत्री जिसने घर के कमरे में पंखे के हुक में चुन्नी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। हमको संदेह है कि बाहरी अज्ञात के द्वारा मानसिक प्रताड़ना या दबाव के कारण शारीरिक शोषण के उपरान्त नाबालिग द्वारा यह कदम उठाकर फाँसी खाई है। वगैर रिपोर्ट पर मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर दर्ज कर अनुसन्धान शुरू किया गया।

## सनातन नववर्ष, चैत्र नवरात्रि की दी बधाई

भीलवाड़ा, (कासं)। शहर विधायक अशोक कोठारी ने विधानसभा क्षेत्र में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर सनातन नववर्ष, चैत्र नवरात्रि, चैतीचंड व राजस्थान दिवस की बधाई शुभकामनाएं दीं। मीडिया प्रभारी पंकज आडवाणी ने बताया कि, विधायक कोठारी ने महर्षि गौतम जयंती पर आयोजित समिति द्वारा शव्य शोभायात्रा व विशाल वाहन रैली का बस स्टैंड चौराए पर स्वागत अभिनंदन किया। महर्षि गौतम जयंती की समाजजनों को भावों के साथ बधाई शुभकामनाएं दीं। भगवान झुलेलाल का अवतरण दिवस चैतीचण्ड पर पुष्य झुलेलाल मंदिर शाम की सब्जी मंडी में ध्वज पूजा अर्चना व ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होकर सिंधी समाजजनों को बधाई शुभकामनाएं दीं। सिंधी समाज ने विधायक अशोक कोठारी का धन्यवाद आभार जताया। जैन श्वेतान्तर सोशल ग्रुप मेवाड़ के द्वारा आयोजित शपथ विधि एवं पदारोपण समारोह नंदिनी रिसोर्ट में आतिथ्य ग्रहण कर नवनि्युक्त कार्यकारिणी व समाज जनों को बधाई शुभकामनाएं दीं। विचार परिवार के कैलाश जी भाई साहब के आशीर्वाचन व उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के मुख्य आतिथ्य व सांसद दामोदर अग्रवाल,



सनातन नववर्ष, चैत्र नवरात्रि पर आयोजित कार्यक्रम में गणमान्य नागरिक व प्रतिभावन जनों का सम्मान किया।

शहर विधायक अशोक कोठारी के विशिष्ट आतिथ्य में भीलवाड़ा नगर निगम सभागार में माणिक्य लाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय द्वारा पूर्य छात्र मिलन समारोह, माणिक्य रत्न संगम कार्यक्रम आयोजित हुआ। साथ ही हिन्दू नववर्ष, चैत्र नवरात्रि व राजस्थान दिवस की हरि सेवा उदासीन आश्रम

सनातन मन्दिर में पहुंचकर महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी उदासीन के दर्शन कर बधाई शुभकामनाएं दीं। श्री गौ सेवा मित्र मंडल एवं पर्यावरण संरक्षण चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित "सनातन नववर्ष-गौसेवा सघर्ष" कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा के साथ

शहर विधायक अशोक कोठारी के शिरकत की। कार्यक्रम में महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन, भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा मंचासीन थे। इस अवसर पर विभिन्न संगठनों द्वारा उप मुख्यमंत्री का स्वागत अभिनंदन किया गया। जैन समाज द्वारा सिखवाल भवन

में आयोजित स्नेह मिलन में उपस्थित होकर बधाई शुभकामनाएं दी, आयोजकगनों ने विधायक का आभार धन्यवाद व्यक्त किया। राजस्थान दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में महाराणा प्रताप सभागार में सांस्कृतिक संस्था का कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधायक अशोक कोठारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर प्रतिभा देवठिया, सोईओ जिला परिषद चंद्रभान सिंह भाटी ने मां सरस्वती के समक्ष द्रौप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर महंत बनवारी शंभर (काठिया बाबा), संत मायाराम, संत राजपूत, संत गोविंद राम, ब्रह्मचारी सिंह, पंडित नवीन शर्मा, भाजपा नगर निगम महापौर राकेश पाठक, पूर्व मुख्य सचेतक कालुलाल गुर्जर, लक्ष्मीनारायण डाड, द्वारिका प्रसाद मेल्ल, भगवान सिंह चौहान, लादुलाल तेली, कन्हैया लाल स्वर्णकार, विनोद झुरानी, सत्यम शर्मा, भूपेंद्र मोरार, बाबूलाल टाक, अर्पित कोठारी, गजेंद्र सिंह राठोड़, दिनेश सुधार, शंभू वैष्णव, रमेश सन्धीना, गजानंद बजाज, हेमनदास भोजवानी, मनीष सबदानी, पार्षद ओम पावशर, किशोर लखवानी, ओमप्रकाश बच्छ आदि उपस्थित थे।

# मुस्लिम धर्मावलंबियों ने अकीदत के साथ मनाया ईद-उल-फितर पर्व

## मस्जिदों में एहताराम के साथ नमाज अदा की गई

जयपुर। रमजान माह में एक माह तक इबादत करने के बाद मुस्लिम धर्मावलंबियों ने सोमवार को ईद-उल-

■ नमाजियों पर फूल बरसाकर भाईचारे का पैगाम दिया

■ सभी ने एक-दूसरे से गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं दीं

फितर का पर्व अकीदत के साथ मनाया। राजधानी की सभी मस्जिदों में ईद-उल-फितर की नमाज एहताराम के साथ अदा की गई। सभी प्रमुख मस्जिदों में सुबह से ही नमाजियों का तांता लगा रहा।

जयपुर में सुबह 6 बजे से नमाज का सिलसिला शुरू हुआ। जौहरी बाजार स्थित जामा मस्जिद में 7:30 बजे नमाज अदा की गई। नमाजियों ने एकता, भाईचारे और देश में अमन-चैन की



मुस्लिम धर्मावलंबियों ने सोमवार को ईद-उल-फितर पर दिल्ली रोड़ स्थित ईदगाह में नमाज अदा की।

दुआएं मांगी।

इसके बाद दिल्ली रोड़ स्थित

ईदगाह में चीफ काजी खालिद उस्मानी ने मुख्य नमाज अदा करवाई। हिंदू

मुस्लिम एकता समिति के लोगों ने ईदगाह मद्रसे की छत से नमाजियों पर

फूल बरसाकर भाईचारे का पैगाम दिया। कुछ नमाजी वक्फ संशोधन विल के

विरोध में बांह पर काली पट्टी बांधकर पहुंचे। नमाज के बाद एक-दूसरे को गले मिलकर बधाई दी। काग्रेस और भाजपा नेताओं ने ईदगाह पहुंचकर बधाई दी।

ईद-उल-फितर के मौके पर ईदगाह और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। दिल्ली रोड़ पर स्थित ईदगाह में बड़ी संख्या में मुस्लिम नमाज पढ़ने के लिए एकत्रित हुए। नमाज अदा करने के बाद सभी ने एक-दूसरे से गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं दीं।

पर पर बच्चों को ईदी दी गई। एक-दूसरे के घर जाकर ईद की खुरी मनाई गई। उल्लेखनीय है कि ईद रमजान के अंत का प्रतीक है, जो उपवास, प्रार्थना और दान के लिए मार्गदर्शक महीना है। इस्लामी कैलेंडर के दसवें महीने शव्वाल के पहले दिन मनाया जाने वाला यह त्योहार नए चांद के दिखने पर आधारित है। ईद के दिन लोग महीने भर रोजे रखने के बाद पूरे दिन खाने-पीने की शुरुआत करते हैं।

## सार-समाचार

### फिजियोथैरेपी पर सेमिनार



जयपुर। अभिलाषा बीमेन वेलफेयर सोसायटी ने फिजियोथैरेपी पर सेमिनार का आयोजन किया। सोसायटी के पदाधिकारियों और सदस्यों के अलावा समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने इस सेमिनार में भाग लिया। इस मौके पर मुख्य वक्ता के तौर पर डॉ. आरुषि माथुर ने विभिन्न शारीरिक समस्याओं को दूर करने में फिजियोथैरेपी के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिये नियमित व्यायाम करना चाहिए। डॉ. माथुर ने आम तौर पर होनेवाली बीमारियों से निपटने के लिए किए जाने वाले व्यायाम का प्रदर्शन भी किया। इस अवसर पर सोसायटी की अध्यक्ष डॉ. रमा माथुर, उपाध्यक्ष विजयलक्ष्मी माथुर, सचिव कल्पना माथुर, सांस्कृतिक सचिव जया कल्ला और डॉ. अंशु सक्सेना सहित सोसायटी के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। अध्यक्ष डॉ. रमा माथुर ने बताया कि सोसायटी की ओर से सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यक्रमों के आयोजन की कड़ी में इस सेमिनार का आयोजन किया गया।

### मुकेश मीणा तीसरी बार प्रेस क्लब के अध्यक्ष निर्वाचित



जयपुर। पिकसिटी प्रेस क्लब प्रबन्ध कार्यकारिणी 2024-25 के लिए मुकेश मीणा अध्यक्ष और मुकेश चौधरी महासचिव निर्वाचित हुए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिल शेखावत ने बताया कि अध्यक्ष पद पर मुकेश मीणा को 410, रूपेश टिकर को 189, अभय जोशी को 163, डॉ. वीरेंद्र सिंह राठौड़ को 138 और अमरदीप शर्मा को 101 मत मिले हैं। महासचिव पद पर मुकेश चौधरी को 295, राजकुमार शर्मा जकड़ी 287, योगेश शर्मा पंचौली को 210, और रामेन्द्र सोलंकी को 187 मत मिले हैं। उपाध्यक्ष के दो पदों पर डॉ. मोनिका शर्मा और परमेश्वर प्रसाद शर्मा निर्वाचित घोषित किए गए हैं। इस पद पर डॉ. मोनिका शर्मा को 520 और परमेश्वर प्रसाद शर्मा को 448 मत मिले हैं। उन्होंने बताया कि कोषाध्यक्ष पद पर विकास शर्मा ने 302 मत प्राप्त कर सफलता हासिल की है। इस पद पर अनिल त्रिवेदी को 299, नमोनाथयण शर्मा को 234 और देवेन्द्र सिंह को 138 मत मिले हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी शेखावत ने बताया कि कार्यकारिणी के दस पदों पर मणिमाला शर्मा, ओमवीर भार्गव, दिनेश कुमार सैनी, दीपक सैनी, ज्ञानेश मिश्रा, अनिता शर्मा, निखिलेश शर्मा, शालिनी श्रीवास्तव, उमंग माथुर, विकास आर्य निर्वाचित घोषित किए गए हैं। पिकसिटी प्रेस क्लब की नवनिर्वाचित प्रबन्ध कार्यकारिणी 2025-26 का शपथ ग्रहण समारोह 1 अप्रैल को दोपहर 12.30 बजे क्लब सभागार में आयोजित किया जाएगा।

### श्याम भजन संध्या का आयोजन



जयपुर। सांगानेर स्थित जगन्नाथ पुरी में श्री श्याम शिव मित्र मंडल के द्वारा तृतीय विशाल वार्षिक उत्सव श्याम भजन संध्या का आयोजन किया गया। बाबा श्याम की नयनाभिराम झांकी सजाई गई। स्थानीय कलाकारों ने विशेष प्रस्तुति देकर श्याम भक्तों का मन मोह लिया। बाबा के दरबार में छपयन भोग की झांकी सजाई गई। श्याम भजन संध्या की शुरुआत धार्मिक भजनों से हुई जिसमें भक्त झुमते नजर आए। भजन गायकों ने हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, दीनानाथ मेरी बात छानी कोणो जैसे भजनों से श्याम भक्तों को रिक्षाया। दरबार में इत्र और फूलों की वर्षा की गई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जयपुर नगर निगम हेरिटेज महापौर कुसुम यादव और पूर्व पार्षद एवं चेयरमैन अजय यादव रहे। मंडल परिवार ने आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत एवं सम्मान माला दुपट्टा और स्मृति चिन्ह भेंट कर किया। इस अवसर पर अध्यक्ष यादव राम अवतार शर्मा विष्णु यादव रतन सिंह राजावत पवन अग्रवाल श्यामबाबू यादव राजेंद्र गुप्ता सुनील अग्रवाल सैकड़ों की संख्या में श्याम भक्त उपस्थित रहे।

## अवैध हथियार सहित बदमाश गिरफ्तार

जयपुर। जयपुर पुलिस कमिश्नरेंट की स्पेशल टीम (सीएसटी) ने जयपुर कमिश्नरेंट की ओर से चलाए जा रहे "ऑपरेशन एक्शन अग्रेस्ट गन" (आग) तहत खोह नागोरियान थाना इलाके में कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार सहित एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। जिसके पास से एक देशी कट्टा और दो जिंदा कारतूस जब्त किया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस उपायुक्त (अपराध) कुन्दन चव्वारिया ने बताया कि जयपुर में चलाये जा रहे ऑपरेशन "आग" के तहत सीएसटी ने खोह नागोरियान थाना इलाके में कार्रवाई करते हुए शोएब खान देसवानी (28) निवासी शास्त्री नगर जयपुर को गिरफ्तार किया गया है। जिसके पास से एक देशी कट्टा और दो जिंदा कारतूस जब्त किए गए। आरोपी से पूछताछ में सामने आया कि आरोपित अवैध हथियार कोटा से लाकर जयपुर में सप्लाई करता है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स और मारपीट के तीन मामलों दर्ज हैं। पुलिस आरोपी से अवैध हथियारों की खरीद-फरोख के बारे में जानकारी कर अन्य बदमाशों को

गिरफ्तार करने में लगी है।

### लूटपाट करने वाली गैंग के चार

### बदमाश गिरफ्तार

जयपुर। प्रताप नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लूटपाट करने वाली गैंग के सरगना सहित चार बदमाशों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। जिनके पास से लूटा गया माल भी बरामद किया गया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व तेजस्वनी गौतम ने बताया कि प्रताप नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लूटपाट करने वाली गैंग के शातिर बदमाश बाबूलाल गुर्जर निवासी दत्तवासा जिला टोंक हाल सांगानेर सदर जयपुर, सोहिल खान निवासी चाकसू जयपुर, हाल मालपुरा गेट जयपुर, हारून खान निवासी फागी जिला जयपुर और सोहिल खान निवासी सांगानेर जयपुर को जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पूछताछ में लूट की कई वारदातों को अंजाम देना कबूला है।

## सामूहिक रूप से किया गणगौर पूजन

जयपुर। सुहाग पर्व गणगौर सोमवार को पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया। सुहागिन महिलाओं ने अखंड सुहाग और कुंवारी युवतियों ने श्रेष्ठ घर-वर की कामना के साथ घरों में मिट्टी से बनाई गई गणगौर और ईसरजी की प्रतिमाओं की पूजा की। गणगौर माता को मेहंदी, हल्दी, ज्वारे, चुनरी भेंट कर मैदा से बने मोठे तीखे गुणे का भोग लगाया गया। श्रृंगार के प्रतीक इस त्योहार पर महिलाएं दुल्हन की तरह सजीं। सिर पर मटकी रख पानी लेने पहुंचीं। समूह बनाकर गणगौर माता के गीत गाए।

फिर गणगौर माता की पूजा अर्चना कर पति की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए प्रार्थना की।

इस दौरान महिलाओं ने गौरी माता की कथा सुनाई। कई स्थानों पर महिलाओं ने सामूहिक रूप से गणगौर पूजन किया। अनेक मंदिरों में भी सामूहिक रूप से गणगौर की पूजा-अर्चना की गई। शाम को गाजे बाजे के साथ शोभायात्रा निकाल कर गणगौर का कुप में विसर्जन किया गया।

गौरतलब है कि विवाहित महिलाओं और कुंवारी कन्याओं के लिए यह पूजा बहुत महत्वपूर्ण मानी



गणगौर पर्व पर सोमवार को सुहागिन महिलाओं ने मिट्टी से बनाई गणगौर और ईसरजी की प्रतिमाओं की पूजा की।

जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन को प्रेम का जीवंत प्रतीक माना जाता है। इस दिन भगवान शिव ने संपूर्ण नारी समाज को

सौभाग्यवती होने का वरदान दिया था। जो सुहागिन गणगौर का व्रत रखती हैं, शिव-पार्वती की पूजा करती हैं।

उनके पति की उम्र लंबी हो जाती है। जो कुंवारी युवतियां गणगौर का व्रत रखती हैं, उन्हें आदर्श जीवन साथी का वरदान प्राप्त होता है।

## गज पूजन के साथ भारतीय नव वर्ष का शुभारम्भ

जयपुर। समग्र विचार मंच ने आज गज पूजन बैंड वादन पुष्प वर्षा के साथ गोविंददेवजी मंदिर प्रांगण में भारतीय नव वर्ष का समारोह शुभारंभ किया।

कार्यक्रम संयोजक सुनील कोठारी ने बताया कि नव वर्ष समारोह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, संघ के जयपुर क्षेत्रीय प्रचारक बाबूलाल, जयपुर सांसद मंजू शर्मा ने गज पूजन किया, समारोह में पधारे अतिथियों व सभी भक्तों ने सामूहिक महाआरती की, बैंड पर मधुर भजन स्वर लहरें, पुष्प वर्षा के साथ नववर्ष का आगुल हुआ।

सुनील कोठारी ने बताया कि मंदिर से हाथी लवाजमे व बैंड वादन के साथ राह में पुष्प वर्षा करते हुए यात्रा



भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, संघ के जयपुर क्षेत्रीय प्रचारक बाबूलाल, जयपुर सांसद मंजू शर्मा ने गज पूजन किया।

पहुंची, सूर्य मंदिर पर सूर्य भगवान की पूजा की गई, समारोह में राजीव सक्सेना, विमल अग्रवाल, विष्णु

जायसवाल, सूरज भान सिंह आमरे समग्र विचार मंच के भारी संख्या में कार्यकर्ताओं व भक्तों ने भागीदारी की।

## चोरी किए ट्रैक्टर-ट्रॉली को खरीदने वाले को पकड़ा

जयपुर। सांगानेर सदर थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम जयपुर दक्षिण (डीएसटी) ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चोरी किए गए ट्रैक्टर-ट्रॉली को खरीदने वाले को पकड़ा है और उसके पास से ट्रैक्टर-ट्रॉली बरामद किया है।

फिलहाल आरोपी खरीदार से पूछताछ की जा रही है। पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण दिगंत आनंद ने बताया कि सांगानेर सदर थाना पुलिस और दक्षिण (डीएसटी) ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 10 दिसंबर 2024 के चोरी किए ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर खरीदार हेमराज मीणा निवासी बाटोदा जिला सवाई माधोपुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ



पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी किए गए ट्रैक्टर-ट्रॉली को खरीदने वाले को पकड़ा है और उसके पास से ट्रैक्टर-ट्रॉली बरामद किया

कर ट्रैक्टर-ट्रॉली चोरी के बारे में

जानकारी कर रही है।

## आईपीएल टी-20 क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले चार युवक गिरफ्तार

जयपुर। करणी विहार थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टी-20 आईपीएल क्रिकेट मैच में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाने वाले चार युवकों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस टीम ने गिरफ्तार युवकों के कब्जे से तीन लैपटॉप, आठ एन्ड्रॉयड मोबाइल फोन, एक जीओ इंटरनेट वाईफाई डॉंगल व फाईबर नेट उपकरण व डायरी बरामद की है।

पुलिस जानकारी में सामने आया है कि गिरफ्तार युवक जूम ऐप के माध्यम से ग्राहकों को ऑन लाईन जोड़कर क्रिकेट मैच के दौरान ऑन लाईन चल रहे भाव के आधार पर अंको से रूपए दाव पर लगाकर टीमों की हार-जीत पर सट्टा खिलवाते थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम अमित कुमार ने बताया कि करणी विहार थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टी-20 आईपीएल क्रिकेट मैच में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाने वाले हरीश हेमनानी (35) निवासी प्रताप नगर जयपुर, अनिल चौधरी (25)

■ उनके कब्जे से 3 लैपटॉप, 8 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, एक जीओ कंपनी का इंटरनेट वाईफाई डॉंगल व जीओ फाइबर उपकरण, एक नोटबुक जब्त की है

निवासी पारोली जिला भीलवाड़ा, संजय चौधरी (31) निवासी पारोली जिला भीलवाड़ा और अजय कुमार मूलचंदानी (43) निवासी वैशाली नगर जयपुर को गिरफ्तार किया। जो जगदम्बा नगर कालोनी में स्थित फ्लैट आईपीएल टी 20 क्रिकेट मैच पर सट्टा चल रहे थे। जिस पर टीम ने मौके पर दबिश देकर उनके कब्जे से मौके पर ही अवैध सट्टा उपकरण 3 लैपटॉप, 8 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, एक जीओ कंपनी का इंटरनेट वाईफाई डॉंगल व जीओ फाइबर उपकरण, एक नोटबुक जब्त की है।



करणी विहार थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टी-20 आईपीएल क्रिकेट मैच में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाने वाले चार युवकों को गिरफ्तार किया है।

थानाधिकारी महावीर सिंह यादव ने बताया कि आरोपितों से पूछताछ में सामने आया है कि आईपीएल क्रिकेट टी-20 मैच 2025 में ऑनलाइन सट्टा संचालन के लिए वह अपने ग्राहकों को

जूम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन जोड़ते हैं तथा क्रिकेट मैच पर चल रहे ऑनलाइन सट्टे के भाव उतलबूध करवाते हैं। इसके बाद ग्राहक अपनी-अपनी टीमों पर अंकों में भाव लगाते हैं।

जिसके आधार पर हार-जीत होने पर यह लोग नगद राशि ग्राहकों से लेते व देते हैं। ऑनलाइन सट्टे में ज्यादातर ग्राहकों की हार ही होती है जिससे ये लोग लाभ कमाते हैं।

## शातिर चेन स्नैचर सहित चोरी का माल खरीदने वाला भी गिरफ्तार

जयपुर। श्याम नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राहगीरों से चेन स्नेचिंग की वारदात करने वाले एक शातिर बदमाश को पकड़ा है और साथ ही चोरी का माल खरीदने वाले को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित चेन स्नेचर से वारदात में प्रयुक्त एक दुपहिया वाहन भी जब्त की है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपित चेन स्नेचर रैपिडो कंपनी की बाइक चलाता है और खिलाफ सवाई

माधोपुर,कोटा,बूंदी और जयपुर में 21 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा आरोपित आरोपित तीन माह पहले ही कोटा जेल से बाहर आते ही वारदात करना शुरू कर देता है। इसके अलावा आरोपी जूआ-सट्टा खेलने का आदी है, जिसकी पूर्ति के लिए लूट करता है। साथ ही वह 3 माह पहले ही कोटा जेल से बाहर आया है। इसके बाद वह कुछ दिन घर पर रहा और 8-10 दिन पहले ही जयपुर आया है तथा रैपिडो कंपनी में मोटरसाइकिल चलाता है। आरोपी सुबह 5 बजे ही उठकर वारदात करने निकल जाता है तथा हेल्मेट लगाकर अंधेरे में ही वारदात करे की कोशिश करता है, जिससे पहचान नहीं हो सके। आरोपी वारदात करने से पहले एवं बाद में लगभग 40-50 किलोमीटर गली-गली में होकर

■ आरोपित तीन माह पहले ही कोटा से जेल से छूटा है

■ आरोपी के खिलाफ 21 आपराधिक मामले दर्ज

धूमता है, जिससे की पुलिस को छकाया जा सके। इसके बाद आरोपी वारदात करने के बाद चेन को बेच देता है तथा प्राप्त रूपये से ऑनलाइन सट्टा खेलाता है।

फर्जी दस्तावेजों से जमीन हड़पने वाला

बदमाश गिरफ्तार

जयपुर। जयपुर ग्रामीण जिले के मौजमाबाद थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति के नाम से जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने वाले शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है शातिर बदमाश ने कुटर्चित दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने के लिए उन्हे न्यायालय में पेश किए थे। लेकिन दस्तावेज फर्जी होने के सत्यापन के बाद से ही आरोपी हेड़ वर्ष से फरार चल रहा था। उप महानिरीक्षक (जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक) आनन्द शर्मा ने बताया कि 9 नवंबर 23 को समस्त अतिथियों को एक वर्ष से अधिक लंबित पुराने प्रकरणों के निस्तारण के लिए सख्त निर्देश दिए गए थे।

### Celebrating Laughter Through Books

Every April 1st, Reading Is Funny Day encourages children and adults to embrace the joy of reading through humour. Laughter makes learning fun, and funny books help develop a lifelong love for reading. From silly rhymes to hilarious stories, humorous literature enhances vocabulary, boosts creativity, and improves comprehension skills. Parents and teachers can celebrate by sharing joke books, comics, or funny read-alouds. Whether it's Dr. Seuss's playful rhymes or a witty graphic novel, laughter-filled reading fosters imagination and connection. So, grab a funny book today and enjoy the magic of reading with a smile!



#SPRING



### #TRENDING

## Memecoin Mania: Totoro, Turnips, and Tokenomics

If there's anything the world of blockchain needed, it was a coin inspired by loot sprites and cat buses.



The latest wave of cryptocurrency chaos is upon us, and this time, it's *Studio Ghibli* that's driving the digital frenzy. Memecoin enthusiasts, anime lovers, and crypto degenerates have united under one whimsical banner. Ghibli-themed tokens. Because, if there's anything the world of blockchain needed, it was a coin inspired by loot sprites and cat buses.



### From Spirited Gains to Castle Crashes

With names like \$TOTORO, \$NOFACE, and \$TURNIPHEAD, these Ghibli-themed tokens have entered the wild west of memecoins, where hype dictates value more than utility. The irony? None of these projects have any official backing from Studio Ghibli, but that hasn't stopped Twitter (sorry, X) from erupting with fans

shouting, "To the moon, Chihiro!" Like a Miyazaki film, the journey has been magical, unpredictable, and, in some cases, mildly terrifying. Traders who aped into \$NOFACE early on claim their wallets are "spirited away" with unexpected gains, while those who hesitated are watching castles in the sky crash back to reality.

### Tokenomics or Totoro-nomics?

Despite their question-mark longevity, these tokens follow classic meme-coin economics: low liquidity, high volatility, and an aggressive reliance on internet memes. The appeal is simple: nostalgia-driven hype. Who wouldn't want to tell their grandchildren they got rich trading a token

based on a radish spirit? One ambitious developer behind \$CATBUS has even promised a "decentralized" "Ghibli Metaverse," which sounds like a lawyer's nightmare but a weeb's dream. Meanwhile, skeptics argue that these tokens are as fleeting as Calcifer's patience in Howl's Moving Castle.

### Will the Magic Last?

Like all memecoins, the Ghibli wave will eventually hit its Totoro-sized ceiling. The real question is whether the trend will fade into obscurity or if we'll see a genuine Miyazaki-inspired blockchain revolution (unlikely, given that Hayao Miyazaki himself doesn't even like technology). But

for now, crypto Twitter is eating up the aesthetic. For those jumping in, just remember: In the world of memecoins, you're either flying high on a magic broomstick or plummeting down like a sleepy forest spirit. Trade wisely, and may your gains be as legendary as a Ghibli masterpiece.

# A Season Without Borders

I grew up between two worlds, one rooted in the poetry of Persia, the other bursting with the colours of India. I have welcomed the Persian New Year with fire-jumping and the Indian spring with clouds of *gula*. I have feasted for *Nowruz*, danced for Holi, and broken bread at a Passover seder. I have laughed with strangers over a pint on St. Patrick's Day in Ireland and stood in awe beneath Japan's cherry blossoms, watching petals fall like blessings from the sky. I have had my past year's bad luck washed away during Thailand's *Songkran* water festival.



Mariam Abuhaideri  
Animal rights activist and a wanderlust

I have always believed that if we truly saw each other, without the borders we've built, without the politics we've inherited, without the visas we struggle to get, without the hate we are fed, we would find that we are all the same, dancing to different beats, singing in different tongues, but ultimately celebrating the same joys of life. And nothing proves this more than spring.

Spring is the earth's way of reminding us that no matter how bitter the winter, pleasures always return. Across the world, we welcome this season with festivals, with colours, with music, with water, with food, with fire, with prayers, with offerings, whatever our ancestors deemed fitting to say, "Thank you, we survived the darkness. It is time for renewal."

But in today's world, we look at a festival that isn't ours and say, "That festival is foreign culture. We shouldn't celebrate it." Foreign? What is foreign about joy? What is foreign about dancing under cherry blossoms, being drenched in water fights, or having colours thrown upon you? What is foreign about lighting fires to welcome renewal or gathering loved ones to mark freedom? What is foreign about celebrating survival, about honouring the simple, universal truth that after every winter, spring must return?

I grew up between two worlds, one rooted in the poetry of Persia, the other bursting with the colours of India. I have welcomed the Persian New Year with fire-jumping and the Indian spring with clouds of *gula*. I have feasted for *Nowruz*, danced for Holi, and broken bread at a Passover seder. I have laughed with strangers over a pint on St. Patrick's Day in Ireland and stood in awe beneath Japan's cherry blossoms, watching petals fall like blessings from the sky. I have had my past year's bad luck washed away during Thailand's *Songkran* water festival.

Spring, in every culture, is a rebirth, the victory of warmth over cold, light over darkness, life over death. The Greeks told it through Persephone, the goddess

### The Eternal Story of Spring

Before we talk about our festivals, let's talk about our story. Because at the heart of every spring festival is the same tale, the battle between darkness and light, winter and warmth, despair and hope.

The Greeks tell it through Persephone, who was taken to the underworld by Hades, leaving the earth barren. But when she returns, the world bursts into bloom. The Hindus tell it through Holi, where the evil Holika is burned, and Prahlad, the true devotee, survives the flames, proving that light always wins. The Persians have *Nowruz*, which brings the return of light, just like *Nowruz*. And then, there is Passover, where the Jews celebrate their escape from slavery in Egypt, a journey from suffering to freedom, from night to day. Even in Ireland, St. Patrick's Day, which seems like an excuse for



cificed and rises again, death and rebirth, darkness and light, just like Persephone, just like Holi, just like *Nowruz*. And then, there is Passover, where the Jews celebrate their escape from slavery in Egypt, a journey from suffering to freedom, from night to day. Even in Ireland, St. Patrick's Day, which seems like an excuse for

a pint of Guinness today, is rooted in a story of survival. St. Patrick himself was once a slave, taken from his home. And then, there is Passover, where the Jews celebrate their escape from slavery in Egypt, a journey from suffering to freedom, from night to day. Even in Ireland, St. Patrick's Day, which seems like an excuse for

### The Festivals That Unite Us

In my home, *Nowruz* has always been sacred. On March 21st, the air is filled with the aroma of sabzi polo-fragrant herbed rice, while the Haft-Sin table stands as a tribute to renewal and hope.

Each item on the table tells a story: wheatgrass for rebirth, garlic for health, vinegar for patience, a mirror for self-reflection, coloured eggs for fertility, and goldfish for life and movement. Candles glow with the promise of enlightenment, while the pages of *Hafez's Divan*, the *Quran*, or the *Shahnameh* whisper ancient wisdom. Among them, the pomegranate, the fruit of paradise, reminds us of abundance and love. Apples shine with beauty, and hyacinths fill the air with the scent of spring. Red tulips stand bold for love and strength, while daffodils, roses, and jasmine weave in the joy of renewal. We jump over fires on the eve of *Nowruz* which is

### Nowruz: The Persian New Year

marked by *Chaharshanbe Suri*, the festival of fire. People leap over flames, chanting, "Give me your redness, take my paleness!" which is a plea to the fire to burn away sickness and misfortune. It reminds me of the Hindu ritual of *Holika Dahan*, where bonfires are lit the night before Holi to cleanse away negativity. Across cultures, fire

serves as a purifier, a symbol of transformation. But when I first celebrated *Nowruz* outside of Iran, I realized something when Persians leap over fire, we are not alone. The Hindus do it for Holi. The Celts do it for Beltane. The Jews light the Paschal fire for Easter. The fire is the same. The message is the same.

### Songkran: A Thai Holi?



Families gather to pour scented water over Buddha statues and the hands of elders, seeking

blessings for the new year. But outside, in the streets, it's a free-for-all, where strangers become

friends, and the worries of yesterday are washed away. Different origins, different customs, but the same spirit. Whether it's Holi's water balloons, Songkran's soaking streets, or even Cambodia's *Chaul Chnam Thmey* and Myanmar's *Thingyan* water festivals, the message is universal: let go, cleanse, rejoice, and step into the new year with laughter and light. And let's not forget the gathering of loved ones and dressing up in brand new clothes! Because in the end, no matter where we are, we all celebrate survival, renewal, and the joy of our past!

### Holi: India's Festival of Colours

Holi has spread far beyond India, made famous by Bollywood songs, the intoxicating thrill of *bhaang*, and the riot of colours that paint the streets. Holi has travelled far beyond India, its riot of colours, the intoxication of *bhaang*, and the infectious joy of Bollywood songs make it a global spectacle. But somewhere along the way, we have let its true meaning fade. More and more, I hear Muslims say that participating in Holi is a violation of their faith. And I can't help but wonder, how, then, can they expect our Hindu

neighbours to accept their festivals? Can we set aside religion for a bit? Can we? I have thought of the fires of *Nowruz*, the Persian New Year, when people leap over flames chanting, "*Zardi-ye man az toh, sorghi-ye toh az man*", "Take my sickness, give me your warmth. Like Holi, *Nowruz* welcomes renewal, the shedding of misfortune, and the courage to step into the light.

I have thought of *Siyavash*, the just prince of Turan (present-day Central Asia), who was falsely accused of betrayal and subjected to an ordeal by fire. If he was innocent, the flames would not harm him. *Siyavash* walked through a blazing wall of fire, and emerged unscathed, a symbol of truth prevailing against deceit.

I have thought of the story of Passover, when the enslaved Israelites fled Egypt, escaping tyranny and crossing into freedom. The fires of Passover, like Holi's bonfire, are not just flames but beacons, guiding people away from oppression and

into renewal.

Holi is not just a festival of laughter and mischief, it is a festival of justice, defiance, and survival of good over evil. Across continents and centuries, we have lit fires to burn away fear and injustice, to welcome new beginnings, to honour those who stood against power and cruelty. We may call it "Holi, *Nowruz*, Passover, Easter, but the message is the same: No tyrant lasts forever. No winter is endless. And no force, no matter how dark, can withstand the fire of truth.

*Different names. Same story.*

### Saint Patrick's Day: The pub-holiday

At first glance, St. Patrick's Day seems out of place in this list. But if you've ever been in Dublin on March 17th, you'd know it is a festival of survival, defiance, and joy.

Saint Patrick, the man behind the celebration, wasn't Irish. He was a Roman-British boy kidnapped by Irish raiders and enslaved for years. When he escaped, he could have left Ireland behind, but instead, he returned, not for revenge, but to spread light. He became the patron saint of Ireland, converting people to Christianity and, according to legend, driving out the 'snakes,' a metaphor for the old pagan ways.

But how did a religious feast day turn into a global celebration of pubs, parades, and people dressed in green? The answer lies in Irish history and resilience. Ireland suffered centuries of colonization, famine, and forced migration, particularly during the Great Famine (1845-1852), when millions of Irish fled to America. In the U.S., Irish immigrants, often marginalized, used St. Patrick's Day as a way to celebrate their identity and unity. The parades began in America, not Ireland, as a statement. We are




here, we are strong, and we will celebrate despite everything. The association with pubs and drinking? In Ireland, St. Patrick's Day was once a solemn religious holiday; pubs were actually closed by law until the 1970s! It was the Irish in America who embraced the party atmosphere, and over time, it spread back to Ireland and beyond. And the green? Ireland is the Emerald Isle, and green has long been a symbol of Irish nationalism and resistance against British rule. The shamrock, which St. Patrick supposedly used to explain the Holy Trinity, became an emblem of pride.

Wearing green was once a rebellious act. Those caught wearing it in British-controlled Ireland could be punished. But beyond the parades, the Guinness, and the sea of green, St. Patrick's Day is about resilience, renewal, and belonging. And as I stood in a pub during my trip to Edinburgh, while I was a student in Northumbria, surrounded by singing strangers, I thought, "This is Holi. This is *Nowruz*. This is *Songkran*. This is the cherry blossom festival in Japan. Different stories, different lands, but the same human spirit of joy. This is what spring is meant to feel like.

### Hanami: The Cherry Blossom Festival, Japan's Celebration of Life

In Japan, when the *sakura* (cherry blossoms) bloom, an entire nation pauses to celebrate. *Hanami* (literally 'flower viewing') is an age-old tradition where families, friends, and even strangers gather under the pink and white canopies of cherry blossoms to welcome spring. The festival dates back over a thousand years to the Heian period when aristocrats would compose poetry inspired by the fragile beauty of the blossoms. Today, it is a nationwide celebration, marked by picnics in parks, music, food, and night-time illuminations known as *yozakura*. The cherry blossom is more than just a seasonal spectacle, it is deeply symbolic. The fleeting bloom, lasting only about one to two weeks, is a metaphor for the impermanence of life, a key concept in Japanese culture



influenced by Buddhism and Shintoism. It reminds people to cherish the present, much like Holi reminds us that joy is temporary but worth embracing, or like *Nowruz* which marks the triumph of light over darkness. As the blossoms fall, carried by the wind like pink snowflakes, the Japanese bid farewell to another winter. Much like the other festivals I introduced you to above, *Hanami* is a way of cleansing the past and stepping into the future with hope.

Patrick's Day, *Songkran*, *Hanami*, different names, different lands, but all whispering the same message: We made it. We are one. And that is worth celebrating.


### A World Without Borders

Maybe, if we remembered that, we wouldn't hate so much. Maybe, if we remembered that, we would see each other not as foreigners, but as cousins in the same human family. Spring is the world's reminder that we have sur-

vived, that we can start again, and that no matter how much darkness there is, the light always returns. And maybe, just maybe, if we understood our festivals better, we would understand each other too. Holi, *Nowruz*, Easter, Passover, St.

rajeshsharma1049@gmail.com

### THE WALL



### BABY BLUES



By Rick Kirkman & Jerry Scott

### ZITS



By Jerry Scott & Jim Borgman



# मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की नमाज अदा की

## मुख्य नमाज शहर के सांगानेरी गेट ईदगाह पर हुई

भीलवाड़ा, (निं.सं.)। भीलवाड़ा में ईद-उल-फ़ितर का त्योहार बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। शहर के विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। शहर सहित जिले भर में मस्जिदों में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की नमाज अदा की।

मुख्य नमाज शहर के सांगानेरी गेट ईदगाह पर हुई, जहाँ ईद उल फितर पर

■ खुदा की बारागाह में लाखों सिर झुके और ऊपरवाले से अमन-चैन की दुआ मांगी


खुदा की बारागाह में लाखों सिर झुके और ऊपरवाले से अमन-चैन की दुआ मांगी। ईद के मौके पर बाजारों में रौनक रही, और बच्चों ने नए कपड़े पहनकर त्योहार का आनंद लिया। इस अवसर पर गरीबों में दान और ज़कात बाँटने की भी परंपरा निभाई गई। प्रेम और हर्षोल्लास से ईद मनाई जा रही है।

## जाटव बैरवा समाज की महापंचायत मे लिए कई निर्णय

करौली, (निं.सं.)। करौली में डॉ. भीमराव अंबेडकर पार्क में जाटव बैरवा समाज कि जिला स्तरीय महापंचायत का आयोजन हुआ। महापंचायत की अध्यक्षता फूलचंद जाटव ने की। आयोजित महापंचायत के दौरान समाज सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मृत्युभोज में किसी भी तरह का भोज नहीं करने का फैसला किया गया। शादी-विवाह में दिखावे के नाम पर होने वाले खर्चों पर पूर्ण रोक लगाई गई। बारात की चढ़ाई और निकासी में डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया। दहेज लेने और देने पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्णय लिया गया। समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया। महापंचायत में नशे के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाया गया। शराब के क्रय-विक्रय पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। स्मैक और अफीम जैसे नशीले पदार्थों पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। कार्यक्रम में समाज के उदय सिंह जाटव के अलावा जिले भर से बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और पंच-पटेल मौजूद रहे।

## सूरौठ में ईदुल फितर ईद की नमाज अदा की

सूरौठ, (निं.सं.)। कस्बे में हिन्दू भाईयों ने मुस्लिम भाईयों को गले मिल दी ईद की मुबारकबाद। मुस्लिम समाज ने पवित्र रमजान माह की ईद का त्योहार ईदगाह में ईद की नमाज अदा कर मनाया इस अवसर पर हिन्दू मुस्लिम एकता की मिसाल देखा गई। सूरौठ में ईदगाह स्थल पर मुस्लिम समाज के लोगों ने सुबह मौलवी हाफिज मौलाना मुख्तार, हाफिज सहूद के सान्निध्य में मुख्य नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ मांगी ईद की नमाज के बाद हिन्दू व मुस्लिम भाइयों ने एक-दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। नमाज के बाद, ईदगाह स्थल के बाहर मौजूद व गांधी स्मारक चौराहे पर केदार मीना, अमर सिंह मीणा, विश्राम मीणा,रमन शर्मा भीला मीना राम हरि



सुभाष नगर उस्मानिया मस्जिद में नमाज अदा करते मुस्लिम समुदाय के लोग।

सांगानेरी गेट ईदगाह पर अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक पारस जैन, सीओ सिटी मनीष बड़गुर्जर,कांग्रेस

जिलाध्यक्ष अश्वयंत्रियाठी, पूर्व सभापति ओम नरानीवाल सहित जनप्रतिनिधियों ने ईद की बधाइयां दी। इसके साथ ही

शहर सहित जिले भर की मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर देश में खुशहाली और अमन चैन की दुआ मांगी गई।

## अवैध हथियार के साथ शातिर बदमाश गिरफ्तार

हिंडौन सिटी, (निं.सं.)। सदर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है।

आरोपी की पहचान बख्सेड़ा निवासी भूपेंद्र मीना के रूप में हुई है। सदर थाना प्रभारी देवेन्द्र शर्मा के अनुसार, मुख्तार से सूचना मिली थी कि एक बदमाश क्षेत्र में वारदात की योजना बना रहा है। पुलिस टीम तुरंत चांदौर नदी की पुलिया पर पहुंची। वहां एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। तलाशी के दौरान उसके पास से 315 बोर का देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। जांच में सामने आया कि आरोपी भूपेंद्र मीना के खिलाफ विभिन्न धारों में कुल 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें बगरू, जवाहर सिंहकल, करौली कोतवाली, प्रताप नगर, चित्रकूट, मालवीय नगर और हिंडौन सदर थाना शामिल हैं। इस सफल कार्रवाई में डैड कॉन्स्टेबल भल्लू सिंह, भरत सिंह, प्रधान और श्याम सिंह के टीम शामिल थी। विशेष रूप से कॉन्स्टेबल प्रधान सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इसी तरह वारदात की फिराक में घूम रहे

■ चौदह मामलों में वांछित आरोपी के पास से देशी कट्टा और कारतूस बरामद

युवक को देशी कट्टा, जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा। जिला स्पेशल टीम व सदर पुलिस थाना टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए किसी वारदात करने की फिराक में घूम रहे एक युवक को पावटियानकापुरा के पास से देशी कट्टा व दो जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। सदरथाना प्रभारी देवेन्द्र शर्मा व अशोक कुमार के नेतृत्व में गटिड टीम में शामिल शिवसिंह, जिला। स्पेशल टीम के देवेश कुमार, अशोक, धनीराम, दयाल, सतेन्द्र अवस्थी, आकाश मुख्तार की सूचना पर पावटियानकापुरा रास्ते पर पहुंचे। वहां एक युवक को पकड़कर तलाशी तो उसके पास देशी कट्टा व दो जिंदा कारतूस मिले। अपना नाम जीतेन्द्र जाटव बताया जिसे आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर लिया गया।

## डिप्टी सीएम बैरवा का भव्य स्वागत

भीलवाड़ा। डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा भीलवाड़ा दौर पर रहे। इस दौरान आजाद नगर माहेश्वरी युवा संगठन द्वारा डिप्टी सीएम डॉ. बैरवा को शॉल, साफा पहनाकर प्रभु श्रीरामलला की तस्वीर सभेभ भेंट कर भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया। स्वागत के दौरान आजाद नगर युवा संगठन अध्यक्ष प्रदीप जांजोटिया सहित रवि पलोड, अमित पलोड, सौरभ सोमानी, अंकुश कोठारी, अंकित जांजोटिया उपस्थित रहे। साथ ही महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, सांसद दामोदर अग्रवाल, शहर विधायक अशोक कोठारी एवं अति. पुलिस अधीक्षक पारसमल जैन उपस्थित रहे। युवा संगठन द्वारा सभी का स्वागत किया गया। इससे पूर्व डिप्टी सीएम बैरवा ने जिला मुख्यालय पर श्री गौ सेवा मित्र मंडल एवं पर्यावरण संरक्षण चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।

## कांग्रेस ने बेरोजगारों का भविष्य खराब किया : डॉ. किरोड़ी लाल मीणा

कोटा, (निं.सं.)। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के भतीजे भंवरलाल के निधन पर संवेदना प्रकट करने आंज कोटा पहुंचे कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री दिलावर के रंगबाड़ी स्थित आवास पर पहुंचकर स्वर्गीय भंवरलाल को श्रद्धा समन अर्पित किए तथा शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर से मुलाकात की।

मंत्री मदन दिलावर से मुलाकात के बाद दिलावर के ही आवास पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश के बेरोजगारों का भविष्य बर्बाद कर दिया। कांग्रेस राज में कुल 18 भती परीक्षाएं हुईं जिनमें से 17 परीक्षाओं में फर्जीबाड़ा किया गया। पैपर लीक हुए भाजपा सरकार ने आते ही मामले में जांच की है और भारत के इतिहास में पहली बार 50 थानेदार जेल के अंदर हैं और बाकी भागे भागे फिर रहे हैं। मामला जांच में है, कोई नहीं बचेगा। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने किसानों को फसल मुआवजे के सवाल के जवाब में कहा कि सूद के कुछ किसान मुझे मिले थे। कोटा में भी किसानों ने उन्होंने शिकायत की है कि कंपनी ने मुआवजा नहीं दिया। कंपनी को 109

■ शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के भतीजे भंवरलाल के निधन पर संवेदना प्रकट करने कोटा पहुंचे कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा

करोड़ रुपए का मुआवजे का भुगतान करना था किंतु उन्होंने केवल किसानों को 9 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। शेष 100 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया। मामला हदमारे संज्ञान में है और हम इसकी जांच करवा रहे हैं। किसानों को पूरा मुआवजा दिलवाया जाएगा।

आज सोमवार को शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के घर पर सांत्वना देने आने वाले तमाम नेताओं अधिकारियों गुण का तांता लगा रहा। कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा के अतिरिक्त पूर्व मंत्री सुभाष मरहिया, लाडपुरा (कोटा) की विधायक कल्पना देवी,राजगढ़ अलवर

के विधायक सुखवंत सिंह,भीलवाड़ा के विधायक अशोक, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मोती लाल मीणा, रामलाल शर्मा पूर्व विधायक चौमू ( जयपुर ), भाजपा के प्रत्याशी रहे ओलीपिन खिलाड़ी देवेन्द्र झांशिरा, राजसमंद जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बृजमोहन बैरवा राजसमंद की जिला प्रमुख रतनी देवी जाट,कोटा जिला कलेक्टर रवींद्र गोस्वामी, कोटा नगर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन,किसान मोर्चा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रिणवा, अपेक्ष बैंक के अध्यक्ष रामलाल, अलवर भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता,सीकर के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं व्यवसायों केमल सिखवाल सहित अन्य भाजपा नेता जनप्रतिनिधि तथा अधिकारी गण मंत्री दिलावर के आवास पर पहुंचे तथा भतीजे स्वर्गीय भंवरलाल दिलावर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उल्लेखनीय है कि 10 दोनों चढ़ाना गांव में एक सड़क दुर्घटना में मंत्री दिलावर के भतीजे भंवर लाल दिलावर का निधन हो गया था 58 वर्षीय भंवर दिलावर सरकारी शिक्षक थे तथा स्कूल की छुट्टी होने के उपरांत अपनी मोटर साइकिल से वापस घर लौट रहे थे। तभी यह दुःखद हादसा घटित हुआ।

## कोटा होकर सांगानेरे ( जयपुर )- पुणे के बीच 1 2 ट्रिप साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलेगी

कोटा, (निं.सं.)। रेलवे द्वारा गर्मियों की छुट्टियों में अतिरिक्त यात्री यातायात को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुविधा हेतु पुणे-सांगानेरे (जयपुर)-पुणे स्पेशल रेल सेवा (12 ट्रिप) का संचालन किया जा रहा है।

गाड़ी संख्या 01433, पुणे-सांगानेरे (जयपुर) साप्ताहिक स्पेशल दिनांक 09.04.25 से 25.06.25 तक (12 ट्रिप) पुणे से प्रत्येक बुधवार को 09.45 बजे रवाना होकर कोटा रात 02.05 बजे आगमन कर गुरूवार को 05.40 बजे सांगानेरे पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 01434, सांगानेरे (जयपुर)-पुणे साप्ताहिक स्पेशल दिनांक 10.04.25 से 26.06.25 तक (12 ट्रिप) सांगानेरे से प्रत्येक गुरूवार को 11.35 बजे रवाना होकर

## उत्साहपूर्वक मनाया महिलाओं ने गणगौर पर्व

गंगापुर सिटी, (निं.सं.)। सोमवार को समूचे क्षेत्र में सुहाग का पर्व गणगौर सुहागिनो ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। नए परिधानों में सज कर महिलाओं ने ईसर गणगौर की पूजा की। भगवान शिव व माता पार्वती को ही ईसर गणगौर के रूप में पूजा जाता है। वहीं नवविवाहिताओं ने सोलह दिन तक ईसर गणगौर की पूजा की। इस दौरान नव विवाहितों के ससुराल से सिजारा भेजा गया और सिजारे में महिलाओं ने बन टन कर गणगौर की पूजा कर मने से बने गुणा सहित अन्य पकवानों का भोग लगाया। इस मौके पर महिलाओं और कुंवारी युवतियों द्वारा सज-संवरकर सामूहिक रूप से ईसर-गणगौर का पूजन किया गया। कुंवारी युवतियों ने अच्छे वर की और महिलाओं ने अपने पति को दीर्घायु की कामना की। इसदिन महिलाएं व्रत रख कर अपने की दीर्घायु व परिवार की सुख सम्पत्ति की कामना करती हैं। जगह जगह गणगौर के गीतों की गुंज सुनाई दे रही थी। वहीं दूसरी ओर नगर परिषद ने भी गाजे बाजे के साथ ब्रदीनाथ मंदिर से शहर मुख्य मुख्य रास्तों से हाते हुए गणगौर की सवारी निकाली। सौतेरी ब्रदीनाथ मंदिर से प्रारम्भ हो कर बैंक ऑफ बडौदा, चौपड बाजार, पंसारी गली, घास मण्डी, चूली गेट पहुंची जहां पर सभापति शिवरतन अग्रवाल, आयुक्त बुजेन्द्र मीना व पापंदे ने गणगौर देवी को भोग लगाकर व पूजन किया।

कोटा, (निं.सं.)। अफीम काश्तकारों के लिए राहत भरी खबर है, 1 अप्रैल से केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा जिला अफीम अधिकारी कार्यालयों के अन्तर्गत स्थापित 8 अफीम कृषि प्रभागों में काश्तकार अपनी उपज बेच सकेंगे। राजस्थान के अफीम काश्तकारों द्वारा फसल वर्ष 2024- 25 के दौरान उगाई गई अफीम उपज, जिसमें अफीम गोंद तथा बिना चोरा लगा अफीम डोडा अर्थात सीपीएस दोनों शामिल है, के खरीद का काम 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। उप नारकोटिक्स आयुक्त, कोटा (राजस्थान) नरेश बंडल ने बताया कि आजादी के बाद से राजस्थान में अफीम की खेती के नियन्त्रण तथा अफीम फसल खरीद का काम भारत सरकार द्वारा स्थापित नोडल एजेंसी केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा किया जाता रहा है। यह काम केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा जिला अफीम अधिकारी कार्यालयों के अन्तर्गत स्थापित 8 अफीम कृषि प्रभागों भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, प्रथम एवं द्वितीय के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस साल अफीम फसल खरीद के लिए जिला- वारां, भीलवाड़ा, झालावाड़, कोटा में

## केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने अफीम खरीद सेन्टर बनाए

कोटा, (निं.सं.)। अफीम काश्तकारों के लिए राहत भरी खबर है, 1 अप्रैल से केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा जिला अफीम अधिकारी कार्यालयों के अन्तर्गत स्थापित 8 अफीम कृषि प्रभागों में काश्तकार अपनी उपज बेच सकेंगे। राजस्थान के अफीम काश्तकारों द्वारा फसल वर्ष 2024- 25 के दौरान उगाई गई अफीम उपज, जिसमें अफीम गोंद तथा बिना चोरा लगा अफीम डोडा अर्थात सीपीएस दोनों शामिल है, के खरीद का काम 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। उप नारकोटिक्स आयुक्त, कोटा (राजस्थान) नरेश बंडल ने बताया कि आजादी के बाद से राजस्थान में अफीम की खेती के नियन्त्रण तथा अफीम फसल खरीद का काम भारत सरकार द्वारा स्थापित नोडल एजेंसी केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा किया जाता रहा है। यह काम केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा जिला अफीम अधिकारी कार्यालयों के अन्तर्गत स्थापित 8 अफीम कृषि प्रभागों भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, प्रथम एवं द्वितीय के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस साल अफीम फसल खरीद के लिए जिला- वारां, भीलवाड़ा, झालावाड़, कोटा में

एक-एक, जिला-प्रतापगढ़ में दो तथा जिला-चित्तौड़गढ़ में तीन अफीम लौल तथा खरीद सेन्टर बनाए गए हैं जिसमें लगभग 28 हजार पांच सौ काश्तकारों से अफीम गोंद उपज तथा लगभग 13 हजार छह सौ काश्तकारों से बिना चोरा लगा अफीम डोडा अर्थात सीपीएस उपज की खरीद की जाएगी।

अफीम गोंद खरीद का काम, चित्तौड़गढ़ प्रथम, द्वितीय, तृतीय खण्ड के काश्तकारों से 1 अप्रैल से, प्रतापगढ़ द्वितीय खण्ड, भीलवाड़ा के काश्तकारों से 2 अप्रैल से, प्रतापगढ़ प्रथम तथा झालावाड़ के काश्तकारों से 3 अप्रैल से शुरू होगा। कोटा प्रभाग के अन्तर्गत, रामगंजमण्डी तहसील के काश्तकारों से अफीम गोंद खरीद का काम 5 अप्रैल से, रामगंजमण्डी केन्द्र पर तथा अन्य सभी काश्तकारों से 12 अप्रैल से छीपाबडौद केन्द्र पर शुरू किया जाएगा। काश्तकारों से बिना चोरा लगा अफीम डोडा अर्थात सीपीएस उपज की खरीद का काम, झालावाड़ में 8 अप्रैल चित्तौड़गढ़ प्रथम खण्ड में 11 अप्रैल से, प्रतापगढ़ द्वितीय खण्ड में 12 अप्रैल से, प्रतापगढ़ द्वितीय खण्ड में 13 अप्रैल से, चित्तौड़गढ़ प्रथम एवं तृतीय खण्ड में 15 अप्रैल से, भीलवाड़ा में 16 अप्रैल से शुरू होगा।

## कैलादेवी मेले के दौरान 6 घंटे बसों का संचालन बंद रहा

करौली, (निं.सं.)। कैलादेवी मेले चल रहे चैत्र नवरात्रि मेले के दौरान राजस्थान रोडवेज कि बस सेवा पूरी तरह से ठप हो गई है। रोडवेज कर्मचारियों ने ओवरटाइम और ड्यूटी भत्ते में कटौती के विरोध में हड़ताल शुरू कर दी जिससे पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने हडकंप मच गया वही जिला प्रशासन,रोडवेज प्रबंधन जयपुर से आये अधिकारियों कि समझाईश के बाद चालक परिचालक मान गये और 6 घंटे बाद पुनः बसों का संचालन शुरू कर दिया।

करौली रोडवेज बस स्टैंड प्रभारी शिवदयाल शर्मा ने बताया कि कैलादेवी मेला क्षेत्र में रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर बसों का संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया। रोडवेज बसों के चालक, परिचालकों ने बताया कि मेला ड्यूटी के दौरान 24 घंटे काम कर रहे हैं लेकिन उनके ओवरटाइम और ड्यूटी भत्ते में कटौती कि जा रही है। कर्मचारियों कि मांग थी कि पूर्व में लागू व्यवस्था को बहाल किया जाए। हड़ताल से दूर-दराज



हड़ताल पर बैठे रोडवेज कर्मचारी।

से आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा हजारों यात्रियों को मंहेन किराया देकर निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ा जिसको देखते हुए जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गये और करौली जिला कलेक्टर नीलाप सक्सेना ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,कैलादेवी

पुलिस उपाधीक्षक,जिला परिवहन अधिकारी को कैलादेवी मेला क्षेत्र में पहुंचकर दर्ताधारों को निजी बसों से गणव्यव स्थानों तक पहुंचाने कि व्यवस्था की।

कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी हड़ताल जारी रहेगी। कैलादेवी मेला राजस्थान के

## अफीम डोडा-चूरा सहित एक गिरफ्तार

छबड़ा, (निं.सं.)। बापचा पुलिस ने एमपी निवासी एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 किलोग्राम से अधिक अफीम डोडा-चूरा बरामद किया व मौके पर से एक बाईक भी जब्त की गई। बापचा थानाधिकारी बुद्धराम जाट ने बताया कि गबरारजसिंह यादव के खेत के पास कोटरापर से भोजपुर रोड पर की गई नाकाबंदी के दौरान भोजपुर रोड की तरफ से एक पेशन प्रो मोटरसा किल आती हुई दिखाई दी, जिसके चालक ने पुलिस जापे देखकर बाईक को एकदम से घुस कर जाने का प्रयास किया। किंतु पुलिस टीम ने डिटेन कर चालक से उसका नाम पता पूछा तो उसने उसका नाम हरिकिरान मीणा (55) पुत्र राधाकिसन निवासी मंगरोडा थाना राजस्थानी डांस आदि प्रतियोगिताएं रखी गई कार्यक्रम अंजना जैन आशा अग्रवाल ने मंच संचालन किया। सास बहू जोड़ी में वर्षा अग्रवाल ज्योति अग्रवाल विनार रही संस्थापक रितु

## गणगौर उत्सव का आयोजन किया

भरतपुर, (निं.सं.)। मॉस वेलफेयर सोसाइटी द्वारा गणगौर उत्सव का आयोजन पायल गोयल की अध्यक्षता में किया गया।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रंजना तिवारी जया सिंघल रुना गुलाटी रिचा खंडेलवाल आदि रही गणगौर उत्सव पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता कराई गई बेस्ट गौरा गौरी का किताब मीरा गोयल ममता जैन संगीता शर्मा रंजना जी जीता सेठ जी का किताब ममता अग्रवाल ने जीता। नखराली गणगौर, सुहागिन गणगौर, गुलाबी गणगौर आदि कर्पटीशन रण पर अतिरिक्त गणगौर आदि राजस्थानी डांस आदि प्रतियोगिताएं रखी गई कार्यक्रम अंजना जैन आशा अग्रवाल ने मंच संचालन किया। सास बहू जोड़ी में वर्षा अग्रवाल ज्योति अग्रवाल विनार रही संस्थापक रितु

## गाजी चौहान का ऐतिहासिक स्मारक बनेगा

मसूदा, (निं.सं.)। वंशीय झाक ठिकाने के शासक रहे ठाकुर गाजीजी चौहान की स्मृति में शिवपुरा घाटा गांव में उनकी प्रतिमा का स्मारक बनाया जाएगा। इस संबंध में रविशर को ब्यार-अजमेर रोड स्थित सिद्धार्थ भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान अभिषेक सिंह चौहान ने स्मारक निर्माण का प्रस्ताव रखा, जिसे चौहान सभा के सभी सरदारों एवं पदाधिकारियों ने करतल ध्वनि से पारित किया। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस कार्य को ग्राम शिवपुरा घाटा स्मारक समिति द्वारा पूर्ण कराया जाएगा। चौहान समाज ने इस स्मारक निर्माण को अपनी सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। समाज बंधुओं से इस कार्य को सफल बनाने में अधिक से अधिक योगदान देने की अपील की गई। बैठक में अभिषेक सिंह, राम सिंह, बोरम सिंह, प्रफुल्ल खन्ना, अशोक सिंह, सतपाल सिंह, नरेंद्र सिंह, देवी सिंह, नवल सिंह, रसाल सिंह, रत्ना चौता, प्रेम सिंह सहित चौहान महासभा के सभी पदाधिकारी एवं समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अग्रधर प्रेमना चौता पूर्व अध्यक्ष हरफूल चौहान, रतना चौता चौहान सेना संस्थापक सतपाल सिंह भवर सिंह आदि मौजूद थे।





## सार-समाचार

### निःशुल्क जांच व लैस प्रत्यारोपण शिविर

श्रीमाधोपुर। जिला अंधता निवारण समिति जयपुर के आर्थिक सहयोग व रोटी क्लब श्रीमाधोपुर सनराइज तथा राजेन्द्र प्रसाद कयाल की देखरेख में शंकरा आई हॉस्पिटल, जयपुर द्वारा बुधवार 2 अप्रैल को श्रीमाधोपुर के चौधरी नाथराम भागु रोटी भवन में '67 वां निःशुल्क मोतियाबिंद जांच और लैस प्रत्यारोपण शिविर' का आयोजन किया जाएगा। क्लब के गिरिराज कयाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होने वाले इस शिविर में मरीजों के आंखों की जांच की जायेगी तथा इनमें से चयनित मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन और लैस प्रत्यारोपण के लिए शंकरा आई हॉस्पिटल जयपुर बस से रेफर किया जाएगा जहां चयनित मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा साथ ही चयनित मरीजों के आने-जाने की व्यवस्था से लेकर मरीजों के खानपान व रहने की व्यवस्था निःशुल्क की जाएगी। इससे पहले आयोजित 66 शिविरों में 6126 पंजीकरण, जिनमें से 1931 मरीजों की आंखों के सफल ऑपरेशन हो चुके हैं। शिविर में आने वाले मरीजों से निवेदन है कि वे अपने आधार कार्ड की 2 फोटो कापी साथ लेकर आएं।

### कर्मल बैसला की पुण्यतिथि मनाई

अलवर। श्री पटेल वीर गुर्जर छात्रावास अलवर में स्व. कर्मल किरोड़ी सिंह बैसला जी की तृतीय पुण्यतिथि मनाई। इस मौके पर अध्यक्ष बाबूलाल पोखवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र कसाणा, कोष अध्यक्ष रामस्वरूप सिराधना, पूर्व नर्सिंग अध्यक्ष प्रेम पटेल, कर्मचारी संगठनों के पद अधिकारी देवेन्द्र पोखवाल, रामकरण रावत, धर्म सिंह कांवर, अजीत सिंह, बनवारी गुर्जर उदय सिंह भूप सिंह महाराज सिंह एडवोकेट खेमराज फूल सिंह देवी सिंह तथा सैकड़ों युवा उपस्थित हुये। राजेन्द्र कसाणा ने कहा कर्मल साहब को सच्ची श्रद्धांजली कामियाब समाज मे आपकी हिस्सेदारी हो। कर्मल साहब के वाक्यों को दोहराते हुये कसाणा ने कहा उनका सपना था कर्म मुक्त समाज अच्छा स्वस्थ घर में पढ़ी लिखी मां। छा जायों छाये रहे। उनके आन्दोलन को याद कर गुर्जर एकांत व संघर्ष को याद किया। स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा जेल भरो आन्दोलन को याद कर अति पिछड़ों को अपना हक दिलाया। कर्मल बैसला जी के अन्दर अदुभुत नेतृत्व क्षमता थी उन्होंने उस नेतृत्व क्षमता को सकारात्मक उपयोग कर अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ी। आज हम सबको उनके पद चिन्हों पर पर उनको याद कर उन्होंने जो समाज की परिकल्पना की उसको पूरा करने का संकल्प लिया तथा उपस्थित जनों ने उनको श्रद्धांजली अर्पित की।

### डॉ.कांता मीना को मिली विद्या वाचस्पति की उपाधि

श्रीमाधोपुर। महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के संत मीरा बाई सभागार में आयोजित नवम दशक समारोह में राजस्थान के राज्यपाल व कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे, कुलपति आचार्य मनोज दीक्षित व संपादक अर्जुनाञ्ज (राष्ट्र की आवाज) प्रफुल्ल केतकर ने शिक्षाविद् एवं साहित्यकार डॉ.कांता मीना को शिक्षा संकाय में विद्या वाचस्पति की उपाधि से विभूषित किया। डॉ.मीना ने अपना शोध कार्य "राजस्थान में कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत विषय में आईसीटी सामग्री के उपयोग का अध्ययन" पर पूर्ण किया। इनके शोध-पत्र कई राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी दो पुस्तकें काव्य संहार केशाशी व कहानी संश्लेष तर्कशक्ति प्रकाशित हो चुके हैं। पूर्व शोध निदेशक व पर्यावरण विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. अनिल कुमार छंगाणी, शोध निदेशक अभिषेक विश्व ने डॉ.मीना को सम्मानित होने पर खुशी व्यक्त की।

### मेला रामनवमी की तैयारियां प्रारंभ

श्रीमाधोपुर। छालिया वाली जोहड़ों श्रीमाधोपुर स्थित श्री इच्छापूर्ण बालाजी के यहां आगामी 6 अप्रैल रविवार को भरने वाले मेला रामनवमी की तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। बताया गया है कि मेले में इनामी कुश्तीया दौड़, घूड़ दौड़, कबड्डी एवं लॉटरी का लकड़ी डूँ आयोजित किया जाएगा। लॉटरी में मोटरसाइकिल, स्कूटी, एलईडी टीवी, मोबाइल, फ्रिज, आटा चक्की, कुलर आदि इनाम रखी गई हैं। मेले में दुकान लगाने वालों को उचित इनाम दिया जाएगा व मेले में रंगीन आतिशबाजी भी की जाएगी। मेला कमेटी की ओर से बताया गया है कि 5 अप्रैल शनिवार को शाम 7 बजे से भजन मंडली द्वारा संगीतमय सुंदरकांड पाठ व भजन का आयोजन किया जाएगा। वहीं रविवार 6 अप्रैल को प्रातः 9 बजे अलौकिक श्रृंगार व हनुमान चालीसा पाठ, शाम 4 बजे से इनामी कुश्तीया रूपए 50, 100, 250 व 500 की पांच-पांच तथा रूपए 1100 की दो तथा रूपए 21 सौ, 31 सौ व 51 सौ की एक-एक कुश्ती कराई जाएगी। कुश्तियों की संख्या को पहलवानों के अनुसार घटाया व बढ़ाया जा सकता है। मेला कमेटी ने क्षेत्र वासियों से आठार किया है कि मेले में सपरिवार व मित्र गणों के साथ पधार कर बजरंगबली के दर्शन कर मेले की शोभा बढ़ावें।

### शिविर में 131 ने रक्तदान किया

सांभरझील, (निर्स)। यहां ब्राह्मण सभाज की धर्मशाला में सोमवार को ब्लड बैंक फुलेरा के तत्वाधान व सांभर के आकाश सैनी की स्मृति में रक्तदान रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर शुभारंभ जयपुर के चमनगिरी जी महाराज ने दीप प्रज्वलन करके किया। आयोजक शंकरलाल सैनी ने बताया कि प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान शिविर लगाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को रक्त उपलब्ध करवाना तथा किसी का जीवन बचाना है, ब्लड बैंक फुलेरा द्वारा एक एकत्रित किया गया। इस शिविर में स्व. आकाश सैनी रक्तदान टीम एवं कुनाल परिवार ने बट चक्र कर हिस्सा लिया। इस मौके पर चमन गिरी जी महाराज ने कहा कि लोगों की सेवा ही सबसे बड़ा परामर्श है। निस्वार्थ सेवा करना मानवता की पहली पहचान है। शिविर में पूर्व विधायक निर्मल कुमारान्त ने सभी रक्तदाताओं की हौसला अफजाई की। सभी रक्तदाताओं को आयोजक की तरफ से प्रमाण पत्र देकर उनका हृदय से आभार व्यक्त किया गया। शिविर में नागरिक विकास समिति के सचिव जितेंद्र डोंगरा, जिला सेवादायक पदाधिकारी सोमेश अजमेर, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी वकील सुनील शर्मा, पूर्व पाण्डे हीरालाल तेंवर, महेंद्र कुमार अजमेर, मनीष सैनी, धर्मेश सैनी, कुंदनलाल मालाकार, दिनेश बंजारा, दिनेश कुमार शर्मा, अमित माधुर सहित अनेक लोगों की उपस्थिति रही।

# डॉ. भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण, पुष्पांजलि अर्पित की

अलवर। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा सोमवार को जिले के एकदिवसीय दौर पर रहे, यहां उन्होंने मालाखेडा तहसील के ग्राम सुमेले में डॉ. भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण कर पुष्पांजलि अर्पित की। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में बाबा साहब को नमन करते हुए कहा कि आज महाराज भर्तृहरि की ऐतिहासिक पावन धरा पर भारत रत्न एवं आधुनिक भारत के शिल्पकार डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, इससे सभी को उनके आदर्शों, मूल्यों एवं विचारों से रूबरू

■ बाबा साहब का संपूर्ण जीवन समतामूलक समाज की स्थापना व लोक-कल्याण के लिए रहा समर्पित - उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा

होने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि बाबा साहब का संपूर्ण जीवन समतामूलक समाज की स्थापना व लोक-कल्याण के लिए समर्पित रहा है। लोकतांत्रिक चेतना से दीप्त उनका महान जीवन हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने बाबा साहब के

### राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव

कोटपुतली। राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय नगर परिषद कार्यालय में रविवार शाम को जिला स्तरीय सांस्कृतिक संघा का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत व नगर परिषद सभापति पुष्पा सेनी ने शिरकत की। जिला स्तरीय सांस्कृतिक संघा में स्थानीय व्यक्तियों का लकारों में मंच पर गौरवशाली कला के रोचक रंगों को उकेरा। मीना सपेरा एंड पार्टी द्वारा चरी, कालबेलिया एवं घूमर नृत्य, प्रभुदयाल एंड पार्टी द्वारा पद दंगल गीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। साथ ही प्रसिद्ध भंगम वादक नूरीन मेवाती द्वारा भंगम वादन की भी प्रस्तुतियां दी गईं। वहीं इस दौरान डॉ. रमाकांत सुभन ने हास्य रस, गुरुदयाल भारती ने वीर रस, डॉ. रामसिंह जिह्दी ने श्रृंगार रस की कविताओं से श्रोताओं का मन मोहा। वहीं छुडाराम पदम एवं महेश जिजापुर ने भी अपनी विरली कविताओं के माध्यम से जनसभा को मनोरंजित किया।

## मेले व भंडारे में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब

मनोहरपुर, (निर्स)। थाना क्षेत्र के टोंकी धाम रामसिंहपुरा अरावली की पहाड़ियों में स्थित श्री श्री 1008 श्री ज्वाला माता जी के मन्दिर पर चैत्र मास के प्रथम नवरात्रि के दिन माता जी के मन्दिर परिसर में मेले व भंडारे विशाल का आयोजन किया गया जिस में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने माता जी के द्वारा पर पहुंच कर माता ज्वाला का आशीर्वाद लिया और इस दौरान श्रद्धालुओं ने पंगत प्रसादी ली मेले में लगी दुकानों पर महिलाओं ने जमकर खरीददारी की।

भक्त मूलचंद बावरिया ने बताया कि यह मंदिर अरावली के पहाड़ियों



डॉ. अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम को उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने संबोधित किया।

व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए उनकी शिक्षा एवं जीवन के संघर्षों से लोगों को अवगत करवाया।

विचारधाराओं के बीच संतुलन बनाकर भारत के भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दुनिया का सबसे बड़े लिखित एवं जीवंत दस्तावेज के रूप में संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने ठामवासियों द्वारा रखी गई मांगों पर नियमानुसार सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया। वहीं केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री व अलवर

भारतीय संविधान निर्माण में अतुलनीय योगदान को याद करते हुए कहा कि बाबा साहब ने विभिन्न मतों, विचारधाराओं के बीच संतुलन बनाकर भारत के भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दुनिया का सबसे बड़े लिखित एवं जीवंत दस्तावेज के रूप में संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने ठामवासियों द्वारा रखी गई मांगों पर नियमानुसार सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया। वहीं केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री व अलवर

## कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक पहुंचे ईदगाह, दी मुबारकबाद

टोंका। जिलेभर में ईद की नमाज मोहब्बत-भाईचारे के संदेश के साथ अदा की गई, जो सोमवार को जिले की सभी ईदगाह में ईद की नमाज अदा हुई, साथ ही कई जामा मस्जिदों में भी हजारों लोगों ने ईद की नमाज पढ़कर दुआएं खर की। जिला मुख्यालय पर ऐतिहासिक बहरी ईदगाह में करीब 30 हजार नमाजियों ने नमाज अदाकर अमन चैन की दुआएं की, जहां मौलवी सईद ने ईद की नमाज अदा कराई।

इस मौके पर मौलवी सईद ने कहा कि सभी मोहब्बत व भाईचारे के साथ रहे, साथ ही नमाज के बाद मुल्क में अमन चैन रहने की दुआएं की। इस मौके पर मुफ्ती आदिल नदवी ने भी इस्लामी तरीके पर रोशनी डाली, ईदगाह कमेटी के सचिव मौदुनुद्दीन निजाम ने ईदगाह सांगवान सहित प्रशासनिक अधिकारियों को मनोरंजित किया।



ईद की नमाज मोहब्बत-भाईचारे के संदेश के साथ अदा की।

मौके पर पूर्व की भांति इस बार भी प्रशासन व नगर परिषद ने ईदगाह में ईद की मुबारकबाद दिए जाने के लिए टेंट लगाया। जहां पर कलेक्टर डॉ. सौम्या झा एवं पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान सहित प्रशासनिक अधिकारियों आदि मौजूद रहे। उन्होंने ईद की खुशियों

में भाग लेकर आपसी सद्भाव को बढ़ाव देने का संदेश दिया। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरि प्रसाद बैरवा, तुलसीराम मीणा, सुभाष मिश्रा, मणिंद्र लोदी, सहित कई संगठनों के लोग मौजूद रहे तथा उन्होंने एकता भाईचारे का संदेश दिया।

# मालपुरा में दस हजार लोगों ने ईदगाह में पढ़ी सामूहिक नमाज, मांगी अमन चैन की दुआ

मालपुरा (निर्स)। सोमवार को ईदुलफितर के त्यौहार पर जयपुर भीलवाड़ा मार्ग स्थित केकड़ी रोड ईदगाह में दस हजार मुस्लिम समाज के नमाजियों ने पढ़ी ईद की सामूहिक नमाज। खुदा की ईबादत में शीश झुका मांगी अमन चैन की दुआ। नमाज के बाद घरो की ओर लौट रही भीड द्वारा ट्रक स्टैण्ड चौराहे पर नारेबाजी करने से दूद छाप व जयपुर भीलवाड़ा राजमार्ग पर बने जाम के हालातों के बाद अफवाहों के चलते नेशनल मिडिया पर दिनभर मालपुरा सुर्खियां बना रहा।



ईदुलफितर के पर्व पर ईदगाह में सामूहिक नमाज के बाद भीड द्वारा ट्रक स्टैण्ड चौराहे पर नारेबाजी से बने जाम के हालात

■ दूद-छाप व जयपुर भीलवाड़ा राजमार्ग पर बने जाम के हालात

■ पुलिस प्रशासन ने शहर में आने वाले चार मार्गों से ट्रैफिक डायवर्ट किया

गया। नारेबाजी कर रहे लोगों का कहना था कि वो लोग हर वर्ष की भांति इस बार भी उन्हीं के मजहब से जुड़े नारे लगा रहे थे।

समाज के वरिष्ठजन युवाओं को अपने घरों की ओर जाने के लिये समझाईश कर रहे थे। लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा भीड को हटाने के लिये थोड़ा कड़ा रूख अपनाते से युवाओं आक्रोशित हो गये। तो वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि दो स्टेट हाईवे के चौराहे पर रूक कर नारेबाजी करने से जमा भारी भीड से जाम के हालात बन गये। पुलिस के जवानों ने चौराहे से भीड से समझाईश कर हटाने का प्रयास किया गया था। कड़ा रूख अपना बल प्रयोग करने की सुचना व आरोप निराधार है।

थानाधिकारी चेनाराम बेडा ने बताया कि मालपुरा के हालातों को देखते हुये वर्ष 2.2.20 में तत्कालीन प्रशासन ने शहर में दोनो ही समुदायों के धार्मिक जुलूस व यात्राओं के परम्परागत मार्ग बदल नवीन मार्ग तय किये गये थे। बीते पांच साल से मालपुरा में ईद व दशहरे का जुलूस निकलने में मुस्लिम बंद हैं। ईद पर भी इस बार मुस्लिम समाज की ओर से ईद का जुलूस निकालने के लिये स्वीकृति के लिये कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया। विना अनुमति के चौराहे पर नारेबाजी कर भीड लगाने जैसे हालात बनने पर लोगों को समझाईश कर चौराहे से हटाया गया। पुलिस उपाध्यक्ष आशीष प्रजापत व थानाधिकारी चेनाराम बेडा सहित डिग्री थानाधिकारी सत्यनारायण चौधरी, पचेवर थानाधिकारी मुकेश कुमार पुलिस जापते के साथ मुस्तैद रहे। ईद के अवसर पर सद्धानना समिति अध्यक्ष इकबाल दादा के आवास पर एसडीएम अमित चौधरी व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोटाराम बेनिवाल, वृत्ताधिकारी आशीष प्रजापत, थानाधिकारी चेनाराम बेडा की दस्तारबंदी कर एक-दुजे को ईद की मुबारकबाद दी गई।



घटिया रोड बनाने पर ठेकेदार प्रवीण चौधरी को लोगों ने घेर लिया।

अलवर। अलवर के ट्रांसपोर्ट नगर में घटिया रोड बनाने पर ठेकेदार प्रवीण चौधरी को सोमवार को वहां के लोगों ने घेर लिया। भीड इतनी आक्रोशित हो गई कि ठेकेदार पर हाथापाई की नौबत आने लगी तो उसने हाथ जोड़कर माफी मांग ली। इसके बाद नगर निगम के कमिश्नर सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। आमजन का आरोप है कि मिट्टी के ऊपर ही रोड बना दी। जो कुछ दिनों में टूट जाएगी। वहीं पार्षद हेतराम यादव पर कमिश्नर का आरोप लगाया तो उनका गुस्सा भी झेलना पड़ा।

वार्ड पार्षद हेतराम यादव ने बताया कि एनकेए का 4 करोड़ 61 लाख रूपए डामरीकरण, नाली व इंटरलॉकिंग का काम दोनों मंत्रियों के सहयोग से काम मंजूर हुआ था। लेकिन अब यहां घटिया काम होने लगा। रोकने पर भी ठेकेदार ने नहीं सुनी। मतलब कई जगहों पर मिट्टी पर ही डामरीकरण का काम शुरू कर दिया। अब कमिश्नर मौके पर आए हैं। आमजन से चाहता है कि गलत काम को दुरुस्त कराया जाए।

मौके पर इस तरह भीड ने रोड बनाने वाले ठेकेदार के विरोध में वार्ड के काफी लोग एकत्रित हो गए। हाथापाई करने की नौबत तक आ गई थी। लेकिन ठेकेदार ने माफी मांग कर पीछा छोड़ा। बाद में अधिकारी आ गए। रोड बनाने वाले ठेकेदार के विरोध में वार्ड के काफी लोग एकत्रित हो गए। हाथापाई करने की नौबत तक आ गई थी। लेकिन ठेकेदार ने

को साफ तक नहीं किया गया। ठेकेदार से शिकायत करने के बावजूद सुनवाई नहीं की। नगर निगम के अधिकारियों ने सुना। अब जनता का विरोध हुआ तो अफसर दौड़े हुए आए हैं। उधर, पार्षद ने विरोध जताया कि उस पर पैसे लेने का आरोप लगाया गया। जबकि उसने कभी किसी काम में एक रुपया नहीं लिया। काफी देर तक पार्षद ने ठेकेदार को खरी खोटी सुनाई।

### दो ट्रेक्टर-ट्राली व ट्रैलर जब्त

टोंका। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के द्वारा अवैध खनन व परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के दौरान वृत्ताधिकारी देवली रामसिंह एवं थानाधिकारी घाड हरिराम वर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने ग्राम देवडावास से एक ट्रेक्टर मय ट्राली को अवैध बजरी का परिवहन करते जप्त किया। इसी प्रकार थाना दूनी व डीएसटी टीम ने अवैध बजरी खनन व परिवहन में संयुक्त कार्यवाही करते हुए राजमहल पिटोल पम्प के पास से अवैध बजरी परिवहन करते एक ट्रेलर एवं एक ट्रेक्टर-ट्राली को अवैध बजरी से भरी हुए को जप्त किया है।

### अलवर में घटिया रोड बना रहे ठेकेदार को लोगों ने घेरा

अलवर। अलवर के ट्रांसपोर्ट नगर में घटिया रोड बनाने पर ठेकेदार प्रवीण चौधरी को सोमवार को वहां के लोगों ने घेर लिया। भीड इतनी आक्रोशित हो गई कि ठेकेदार पर हाथापाई की नौबत आने लगी तो उसने हाथ जोड़कर माफी मांग ली। इसके बाद नगर निगम के कमिश्नर सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। आमजन का आरोप है कि मिट्टी के ऊपर ही रोड बना दी। जो कुछ दिनों में टूट जाएगी। वहीं पार्षद हेतराम यादव पर कमिश्नर का आरोप लगाया तो उनका गुस्सा भी झेलना पड़ा।

वार्ड पार्षद हेतराम यादव ने बताया कि एनकेए का 4 करोड़ 61 लाख रूपए डामरीकरण, नाली व इंटरलॉकिंग का काम दोनों मंत्रियों के सहयोग से काम मंजूर हुआ था। लेकिन अब यहां घटिया काम होने लगा। रोकने पर भी ठेकेदार ने नहीं सुनी। मतलब कई जगहों पर मिट्टी पर ही डामरीकरण का काम शुरू कर दिया। अब कमिश्नर मौके पर आए हैं। आमजन से चाहता है कि गलत काम को दुरुस्त कराया जाए।

मौके पर इस तरह भीड ने रोड बनाने वाले ठेकेदार के विरोध में वार्ड के काफी लोग एकत्रित हो गए। हाथापाई करने की नौबत तक आ गई थी। लेकिन ठेकेदार ने माफी मांग कर पीछा छोड़ा। बाद में अधिकारी आ गए। रोड बनाने वाले ठेकेदार के विरोध में वार्ड के काफी लोग एकत्रित हो गए। हाथापाई करने की नौबत तक आ गई थी। लेकिन ठेकेदार ने

को साफ तक नहीं किया गया। ठेकेदार से शिकायत करने के बावजूद सुनवाई नहीं की। नगर निगम के अधिकारियों ने सुना। अब जनता का विरोध हुआ तो अफसर दौड़े हुए आए हैं। उधर, पार्षद ने विरोध जताया कि उस पर पैसे लेने का आरोप लगाया गया। जबकि उसने कभी किसी काम में एक रुपया नहीं लिया। काफी देर तक पार्षद ने ठेकेदार को खरी खोटी सुनाई।





मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में निवेश उत्सव कार्यक्रम को संबोधित किया और बताया कि 3 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्तावों पर काम शुरू हो गया है।

## राजस्थान 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा- भजनलाल

### मुख्यमंत्री ने "निवेश उत्सव" में कहा, राइजिंग राजस्थान में हस्ताक्षरित 3 लाख रुपए के एमओयू की ग्राउन्ड ब्रेकिंग हुई

जयपुर, 31 मार्च। सोमवार को जयपुर के एक निजी होटल में आयोजित निवेश उत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस बार राजस्थान दिवस पर सात दिवसीय महोत्सव का आयोजन कर महिला, किसान, युवाओं के उत्थान और गरीब कल्याण की कई सौगातें दी गई हैं। इसी कड़ी में, आज हम यहां निवेश उत्सव मना रहे हैं, जो राज्य के आर्थिक विकास की दिशा में एक और मजबूत कदम साबित होगा।

शर्मा ने कहा कि आज का निवेश उत्सव एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन इम्पैक्ट 1.0 (इम्पैक्ट वन व्हाईट ओ) पर केंद्रित है, जो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत किए गए एमओयू को धरातल पर उतारने के हमारे प्रयासों को दर्शाता है। राज्य सरकार ने इन निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए त्रिस्तरीय रिस्क मैनेजिमेंट बनाया है। हर विभाग और जिले में डेडिकेटेड टीम बनाई, जो इन एमओयू की सक्रिय रूप से निगरानी कर रही है। इस सतत पर्यवेक्षण का ही परिणाम है कि राइजिंग राजस्थान के तहत हुए एमओयू में से 3 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही है। कार्यक्रम में इस संबंध

- मुख्यमंत्री ने कहा कि, राज्य में अलग-अलग सैक्टरों की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किए गए 18 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये जायेंगे।
- इस वर्ष 11 और 12 दिसम्बर को दो दिवसीय राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन होगा।

में एक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने रीको औद्योगिक क्षेत्रों के लिए डायरेक्ट लैंड एलाउटमेंट पॉलिसी लॉन्च की, जिसमें उन सभी एमओयू धारकों को शामिल किया गया, जिन्होंने राइजिंग राजस्थान के तहत सरकार के साथ 15 मार्च तक एमओयू निष्पादित किए। शर्मा ने कहा कि हम राजस्थान में 'विकसित राजस्थान 2047' का सपना देख रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम वर्ष 2030 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक ले जाएं। उन्होंने कहा कि यह केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार, किसानों के लिए समृद्धि और हमारे अधिमर्तों के लिए अवसरों का एक नया युग साबित होगा।

शर्मा ने कहा कि सरकार 18 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने जा रही

है। इन नए औद्योगिक क्षेत्रों को अलग-अलग सैक्टरों की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है, ताकि हमारा प्रदेश मैनुफैक्चरिंग का पावरहाउस बन सके। इस अवसर पर उन्होंने राजस्थान फाउंडेशन के गुवाहाटी, भुवनेश्वर, रांची, पुणे, दिल्ली, दुबई, म्यूनिख, रियाद, टोक्यो, सिंगापुर, मेलबर्न, नैरोबी, कम्पला और दोहा में 14 नए चैप्टर्स खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए हमारी सरकार इस साल 11 और 12 दिसंबर को दो दिवसीय राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन भी करेगी।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन इन्वेस्टर इंटरफेस का मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया, जिससे संबंधित निवेशक मोबाइल पर ही अपने-अपने प्रस्तावों के क्रियान्वयन

की प्रगति को ट्रैक कर सकेंगे। इस अवसर पर उद्योग मंत्री कनल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि हम राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर निर्णय ले रहे हैं, जिससे वर्ष 2047 तक के विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा किया जा सके। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने कहा कि निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने में राजस्थान अग्रणी राज्य है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 लोगो का बटन दबाकर अनावरण किया तथा कॉन्क्लेव की आधिकारिक घोषणा की। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव उद्योग अतिरिक्त शर्मा, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के चैयरमैन आलोक गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव राजस्व दिनेश शर्मा, प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन राजेश यादव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़, प्रमुख शासन सचिव खेल एवं युवा मामल भवानी सिंह देवा, रीको की प्रबंध निदेशक शिवांगी स्वर्णकार सहित संबंधित विभागों के अधिकारिण एवं बड़ी संख्या में निवेशक उपस्थित रहे।

### राजशाही समर्थक आंदोलन ने जोर पकड़ा

काठमांडू/रक्सौल, 31 मार्च। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्याओं का समाधान 'राजा की शरण' में मिल जाने की उम्मीद में, 'लोकतंत्र' को समाप्त कर 'राजतंत्र' को वापसी के लिए संघर्ष शुरू करने वाले दुनिया के पहले देश नेपाल में यह आंदोलन अब पहाड़ से उतरकर मैदान की ओर फैलने लगा है।

भारत के सीमवर्ती राष्ट्र नेपाल में 'राजतंत्र' की वापसी का आंदोलन बहुत कम समय में ही देशव्यापी विस्तार पाने लगा है। बेरोजगारी और महंगाई से उत्पन्न नाराजगी युवा कंधों पर सवार होकर पहाड़ी क्षेत्रों से उतरकर मैदानों इलाकों में फैलने लगी है। इसके ठीक विपरीत, 'लोकतंत्र' की स्थापना का आंदोलन मैदानी क्षेत्रों से निकलकर पहाड़ों इलाकों की ओर गया था।

देश की राजधानी काठमांडू से चला आंदोलन हैटीरा और नरायणघाट की सर्पाकार पहाड़ी सड़कों से गुजरकर भारत के सीमावर्ती बीरगंज, विराटनगर, नेपालगंज और जनकपुर के मैदानी क्षेत्रों तक पहुंच गया है।

## उदयपुर में पूर्व केन्द्रीय मंत्री गिरिजा व्यास झुलसीं, अहमदाबाद रैफर किया

### गणगौर की पूजा के दौरान चुन्नी ने आग पकड़ ली थी

-कार्यालय संवाददाता- जयपुर/उदयपुर, 31 मार्च। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री गिरिजा व्यास (79) आरती करते हुए झुलस गईं। गणगौर पूजा के दौरान दीपक से उनकी चुन्नी में आग लग गई। गिरिजा व्यास को उदयपुर के निजी अस्पताल में ले जाया गया था, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उनको अहमदाबाद रैफर कर दिया गया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गिरिजा व्यास के भाई और भतीजे से अहमदाबाद फोन पर बातचीत कर स्वास्थ्य की जानकारी ली। मुख्यमंत्री शर्मा ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और स्वास्थ्य मंत्री रुशिकेश पटेल से

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और स्वास्थ्य मंत्री रुशिकेश पटेल से बात करके गिरिजा व्यास के बेहतर इलाज का आग्रह किया।

बात करके गिरिजा व्यास के बेहतर इलाज के लिए भी चर्चा की। व्यास के भाई गोपाल शर्मा ने बताया कि मैं फार्म हाउस पर गया हुआ था। इस

दौरान आग लगने की सूचना मिली। घर पहुंचे तो पता चला कि वे गणगौर का पूजन कर रही थीं। इसी दौरान उनकी चुन्नी में आग गई। नीचे जल रहे दीपक के कारण उनकी चुन्नी में आग पकड़ ली थी। घर में ही काम करने वाले एक व्यक्ति ने उनको संभाला। उनको उदयपुर में निजी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां से उन्हें अहमदाबाद रैफर कर दिया गया। वह हितांशी शर्मा ने बताया कि गणगौर की पूजा करने के बाद सभी लोग अपने-अपने कामों में लग गए थे। इसी दौरान नीचे जल रहे दीपक से चुन्नी में आग पकड़ ली। इसके बाद तुरंत मैं और मेरे पति और घर में काम करने वाला बसंत उन्हें अस्पताल लेकर गए।

## अप्रैल-जून में देश के 15 राज्य गर्मी से झुलसंगे

### भारतीय मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया

नयी दिल्ली, 31 मार्च। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अप्रैल से जून के बीच सामान्य से अधिक गर्मी पड़ने की चेतावनी जारी की है। इस साल फरवरी के अंत में ही कोंकण, तटीय कर्नाटक में गर्म हवाएं चलने लगी थीं। मार्च में ओडिशा समेत कई राज्यों से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की खबरें आईं। अब मौसम विभाग ने कहा है कि मध्य और पूर्वी भारत के अलावा उत्तर-पश्चिमी राज्यों में लू (गर्म हवाएं) वाले दिनों की संख्या पिछली बार से अधिक रहेगी। कुछ राज्यों में लू वाले दिन दोगुना होने की आशंका है।

- मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी में 10 दिन में लू चलने की चेतावनी दी
- मौसम विभाग ने बताया कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब सहित कई राज्यों में तेज गर्मी पड़ने की संभावना है।

न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक रहने की आसार हैं। उन्होंने कहा, देश के मध्य, पूर्वी और उत्तर-पश्चिमी राज्यों में लू (गर्म हवाएं) वाले दिनों की संख्या पिछली बार से अधिक रहेगी। कुछ राज्यों में लू वाले दिन दोगुना होने की आशंका है। महापत्र ने कहा, जिन राज्यों में सामान्य से अधिक गर्म हवाएं चलने की संभावना है, उनमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार,

झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक और तमिलनाडु के उत्तरी भाग शामिल हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा सहित कुछ राज्यों में इस अवधि के दौरान 10 से 11 दिन लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग के प्रमुख ने कहा, अप्रैल में भारत के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। अधिकांश क्षेत्रों में

## 'बिहार में अमित शाह सरकार चला रहे हैं'

### प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि नीतीशा तो सिर्फ मुखौटा हैं

किशनगंज, 31 मार्च। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीशा कुमार सिर्फ मुखौटा हैं, सरकार केन्द्रीय मंत्री अमित शाह और उनके अधिकारी चला रहे हैं।

किशोर किशनगंज में अंजुमन इस्लामिया ईद मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। ईद मिलन कार्यक्रम के बाद किशोर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों में नीतीशा सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। कुमार खुद सरकार चलाने की स्थिति में नहीं हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उन्हें 13 करोड़ लोगों के ऊपर बैठा रखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुमार सिर्फ मुखौटा हैं, जबकि दिल्ली में बैठी सरकार और उनके अधीन कुछ अधिकारी सरकार चला रहे हैं। किशोर ने कहा कि हम वक्फ कानून के खिलाफ हैं। यदि मुस्लिम समुदाय को विश्वास

- जनसुराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर ने किशनगंज में अंजुमन इस्लामिया ईद मिलन कार्यक्रम में शिरकत की।

में लिए बिना वक्फ कानून पारित किया जाता है तो यह पूरी तरह से गलत होगा। उन्होंने कहा कि यदि वक्फ कानून पारित होता है तो इसके लिए भाजपा से ज्यादा कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के सांसद जिम्मेदार होंगे। ऐसा इसलिए, क्योंकि यदि जदयू के सांसद वक्फ के खिलाफ वोट करते हैं तो यह कानून नहीं बन सकता। और यदि वे वक्फ के खिलाफ वोट नहीं करते हैं तो खुद को गांधी और लोहिया का अनुयायी कहना गलत होगा।

## पूजा स्थल अधिनियम पर सुनवाई आज

नयी दिल्ली, 31 मार्च। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार (1 अप्रैल) को प्लेसेज ऑफ वरिंश एक्ट 1991 की धारा की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने वाला है। यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी भी धार्मिक स्थल के स्वरूप को बनाए रखने को अनिवार्य बनाता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच के सामने यह मामला एक अप्रैल के लिए लिस्ट किया गया है। याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायालयों को यह आदेश दे कि वे किसी भी पूजा स्थल के मूल धार्मिक स्वरूप का निर्धारण करने के लिए उचित निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हों।

इसमें अधिनियम की धारा 4(2) को चुनौती दी गई है, जो किसी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप में बदलाव करने संबंधी कार्यवाहियों पर रोक लगाती है और नए मामलों को दर्ज करने पर भी पाबंदी लगाती है। याचिकाकर्ता नितिन उपाध्याय ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि केंद्र सरकार ने इस

- सुप्रीम कोर्ट ने विधेयक की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका विचार के लिए स्वीकार कर ली थी।
- सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि अगले आठवटा तक इस कानून के तहत न तो कोई केस दर्ज होगा न ही कोई कार्यवाही होगी।

कानून के माध्यम से न्यायिक उपचार को अवरुद्ध कर अपने विधायी अधिकारों का अतिक्रमण किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने बेहद अहम आदेश में 12 दिसंबर 2024 को देश की सभी धार्मिक स्वरूप में बदलाव करने संबंधी कार्यवाहियों पर रोक लगाती है और नए मामलों को दर्ज करने पर भी पाबंदी लगाती है। याचिकाकर्ता नितिन उपाध्याय ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि केंद्र सरकार ने इस

## देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल

### ट्रेन हरियाणा, जींद से सोनीपत रुट पर चलाई जाएगी

नयी दिल्ली 31 मार्च। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल शुरू हो चुका है। ये ट्रेन हरियाणा के जींद और सोनीपत रूट पर दौड़ेगी। हाइड्रोजन ट्रेन दूसरी ट्रेनों से काफी अलग है। सबसे खास बात है कि ये पर्यावरण के अनुकूल ट्रेन है। चेन्नई की इंटीटाल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ) से तैयार किया गया है। 89 किलोमीटर के इस रूट पर ट्रेन का ट्रायल शुरू हुआ। यह ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है। 1200 हॉर्सपावर की क्षमता वाली यह ट्रेन एक बार में 2638 यात्रियों को ले जा सकेगी। रेल मंत्रालय ने हाइड्रोजन ईंधन सेल-आधारित ट्रेनों के निर्माण के लिए 2800 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, जिससे तहत 35 ऐसी ट्रेनों तैयार की जा रही है। 8 कोच वाली यह ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली दुनिया की सबसे लंबी

- 110 किलोमीटर की रफ्तार से चलने में सक्षम यह ट्रेन इकोफ्रेंडली होती है।

हाइड्रोजन ट्रेनों में शामिल होगी। हरित प्रौद्योगिकी पर आधारित यह पहल कार्बन उत्सर्जन को कम करने और शून्य कार्बन लक्ष्य की ओर बढ़ने में अहम भूमिका निभाएगी। ट्रायल के दौरान, ट्रेन की तकनीकी क्षमता और सुरक्षा मानकों का मूल्यांकन किया जाएगा। सफल परीक्षण के बाद इसे नियमित संचालन में लाने की योजना है। चेन्नई की इंटीटाल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ) द्वारा निर्मित यह ट्रेन स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में भारतीय रेलवे का महत्वपूर्ण कदम है।

## 'मोदी का उत्तराधिकारी ढूंढने की कोई ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) सेवानिवृत्त किये जाने के प्रस्ताव का समर्थन किया था। इस अटकल को खारिज करते हुये कि मोदी का उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से होना संभावित है, फंडनवीस ने कहा: "हमारी संस्कृति में, जब तक पिता जीवित हों, तब तक उत्तराधिकारी की चर्चा अनुचित मानी जाती है। इस बिन्दु पर चर्चा करने का समय अभी नहीं आया है।"

इस बीच, वरिष्ठ आरएसएस नेता सुरेश "भैयाजी" जोशी, जो रविवार को नागपुर में ही थे, ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री के हटने की चर्चा की जानकारी नहीं है। राउत ने अपने बयान में कहा कि यह तो स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री को 75 वर्ष की उम्र पर सेवानिवृत्त होने के लिए वाध्य कर दिया जायेगा तथा इस श्रेणी के अन्य नेताओं को भी सेवानिवृत्त होने के संकेत दिये जायेंगे। मोदी इस वर्ष सितम्बर में 75 वर्ष के हो रहे हैं। राउत ने आगे कहा कि मोदी पिछले 11 वर्षों में कभी भी आरएसएस मुख्यालय नहीं गये, लेकिन वे रविवार को संघ को यह सूचित करने ही गये कि

वे अब पद छोड़ रहे हैं। 2014 के बाद मोदी की आरएसएस मुख्यालय की इस पहली यात्रा को इस रूप में देखा जा रहा है कि गत वर्ष के "उदासीन रिश्तों" के बाद, अब अपने सैद्धांतिक अभिभावक (आरएसएस) के प्रति भाजपा का रख बदल गया है, उसमें उष्णता आ गई है। पार्टी ने कहा है कि ऐसा कोई नियम नहीं है, तथा केन्द्रीय मंत्रिमंडल में कम से कम एक सदस्य, जौतन राम माँझी, तो इस उम्र-सीमा को पार कर चुके हैं। अस्सी वर्षीय माँझी इस समय माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एन्टरप्राइजेज मिनिस्टर हैं। मोदी सहित, अन्य कुछ मंत्री एक या दो साल के अंदर ही 75 वर्ष के हो जायेंगे।

तथापि, मोदी के भविष्य को लेकर चर्चा, मूल रूप से तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल के चुनावों के दौरान ही उस समय शुरू कर दी थी, जब उन्होंने जोर देते हुये कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री बनने के लिये तैयार किये जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की नागपुर-स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक मुख्यालय की यात्रा ने उस चर्चा को बड़ा रूप दे दिया है। आरएसएस को सतारूढ़ भाजपा

का वैचारिक मार्गदर्शक माना जाता है। महाराष्ट्र के विपक्षी दल, शिव सेना (यूबीटी) ने मोदी की आरएसएस मुख्यालय की इस यात्रा को हाथों-हाथ ले लिया और संजय राउत ने बयान दे दिया कि आरएसएस ने मोदी को बुलाया था, ताकि उनके उत्तराधिकारी के प्रश्न पर उनसे चर्चा हो सके। इस बात पर जोर देते हुये कि मोदी का उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से होगा, राउत ने कहा, "वे (मोदी जी) आरएसएस मुख्यालय में संभवतः इसलिए गये थे कि वे सितम्बर में होने

### जेईई मेन्स परीक्षा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) कि 29 मार्च को तार 11 बजे उससे आखिरी बार बातचीत हुई थी। बेटे ने लखनऊ के लिए बस में रिजर्वेशन भी करा लिया था। पिता ने भरोसा दिलाया था कि वह उसका सारा सामान पैकर्स एंड मूवर्स के जरिए ले आएंगे, लेकिन इसके बीच ही यह हादसा हो गया। पिता ने बताया कि उज्ज्वल पढ़ाई में ब्रिलिएंट तो नहीं

वाली अपनी सेवानिवृत्ति का प्राथना पत्र लिख चुके। राउत ने घोषणा की, "मोदी का उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से होगा तथा इस पर निर्णय आरएसएस लेगी।" "मैं ऐसा समझता हूँ कि संघ परिवार देश के नेतृत्व में परिवर्तन चाहता है। पीएम मोदी का समय पूरा हो गया है। (आरएसएस) परिवर्तन चाहते हैं तथा अगला भाजपा प्रमुख चुनाव चाहते हैं।" राउत के बयान पर त्वरित एवं निश्चयात्मक प्रतिक्रिया दी गई।

था, लेकिन एवरेज से काफी अच्छा था। कोटा में यह 2 साल से काफी अच्छे से रह रहा था, इसलिए सुसाइड करने की आशंका नहीं थी। उज्ज्वल के लिए दीपक मिश्रा ने कहा, हमने देखा है, बच्चों में स्ट्रेस है, वे अपनी बात ठीक से नहीं बता पाते हैं। मैंने जब उसे बताया कि मैं उसे लेने आ रहा हूँ तो शायद उसको यह करना ही आसान लगा।

### म्यांमार में अब ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) गये हैं। म्यांमार ने देश में आये 7.9 की तीव्रता वाले भूकंप की आपदा के सोमवार को एक सप्ताह के शोक की घोषणा की। राज्य प्रशासन परिषद के अध्यक्ष वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्वांग ने आज वृथापि, अभी तक न तो ए.आई.ए.डी.एम.के. और न ही भाजपा ने गठबंधन के बारे में कोई आधिकारिक बयान दिया है, लेकिन दोनों पार्टियों से संकेत मिल रहे हैं कि डी.एम.के. विरोधी बेटों में विभाजन

### क्या केरल में विधानसभा...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) विरोध किया है। इसके साथ ही, उन्होंने पिछले महीने वामपंथ-शासित केरल की आर्थिक नीतियों की प्रशंसा की थी। थरु को यह कहते हुये उद्धृत किया गया है, "मैंने किसी न किसी बिन्दु पर सबकी आलोचना की है। मेरे अपने विचार हैं, तथा कभी-कभी मेरे विचार मेरी पार्टी को पसंद नहीं आते। मैं ऐसी स्थिति का सामना लम्बे समय से कर रहा हूँ।" पिछली बार, लोकसभा के लिये

## तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) दिल्ली में समायोजित किया जाए या केन्द्रीय मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाए, ताकि राज्य में दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन का रास्ता साफ हो सके। तथापि, अभी तक न तो ए.आई.ए.डी.एम.के. और न ही भाजपा ने गठबंधन के बारे में कोई आधिकारिक बयान दिया है, लेकिन दोनों पार्टियों से संकेत मिल रहे हैं कि डी.एम.के. विरोधी बेटों में विभाजन

नहो, यह एक राजनीतिक आवश्यकता है। यही कारण है कि अन्नामलाई के वक्तव्यों से यह समझा जा रहा है कि पार्टी की राज्य इकाई में होने वाले परिवर्तन उन्हें स्वीकार हैं। वे कई बार कह चुके हैं कि केन्द्रीय नेतृत्व उन्हें जो भी भूमिका देगा, उसे वे स्वीकार करेंगे। दिलचस्प बात यह भी है कि भाजपा के कुछ नेताओं के अन्नामलाई के साथ मतभेद हैं और पार्टी के कुछ वर्गों में उनकी विदाई का स्वागत किया जाएगा। हालांकि, इस समय ये सब अटकलें ही हैं। ए.आई.ए.डी.एम.के. का रुख स्पष्ट है कि यदि गठबंधन की कोई बातचीत होगी तो वह चुनावों के करीब होगी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री स्टालिन ने 2026 के चुनावों के लिए जिस तरह से एक मजबूत रणनीति बनाई है, उसे देखते हुए, ए.आई.ए.डी.एम.के. के लिए इस समय भाजपा के साथ गठबंधन करना राजनीतिक रूप से आत्मघाती हो सकता है। खासकर जबकि स्टालिन ने, भाषा एवं डीलिटिमेशन जैसे दो महत्वपूर्ण एवं भावनात्मक मुद्दों पर भाजपा को तमिल

भाषा एवं तमिलनाडु विरोधी विलेन के रूप में प्रोजेक्ट किया है। इन दोनों मुद्दों पर ए.आई.ए.डी.एम.के. की भी डी.एम.के. की तरफ खड़े होने के लिए बाध्य होना पड़ा था। स्टालिन के नेतृत्व में राज्य में हुए विकास को प्रभावशाली अभियान का रूप दिया जा रहा है। एक स्थानीय समाचार पत्र ने राज्य के औद्योगिक विकास पर 64 पृष्ठों का विशेष अंक प्रकाशित किया है, जिसमें तमिलनाडु की आर्थिक सफलता के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं।

स्टालिन ने अपना आक्रामक एजेण्डा शुरू करने अपने प्रतिद्वंदियों को प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर दिया है, जिससे ए.आई.ए.डी.एम.के. रक्षात्मक स्थिति में आ गई है। उसकी स्थिति जटिल हो गई है, क्योंकि वह इस भय से डी.एम.के. द्वारा उठाए गए मुद्दों का विरोध नहीं कर सकती कि कहीं उसे तमिल विरोधी न समझ लिया जाए। इसके अलावा, अन्नाद्रमुक "दो भाषा नीति" के विरुद्ध भी कोई रुख नहीं अपना सकती, जिसे उठाने स्वयं ही उस समय लागू किया था, जब वह सत्ता में थी।